

## **QUESTION BOOKLET**

प्रश्न-पुस्तिका

Sr. No.

| S                           | eries  |                           |   |  |
|-----------------------------|--|---------------------------|---|--|
| Ro                          | ll No. (in Figures) रोल नं. (अंकों में) :  |                           |   |  |
| Ro                          | ll No. (in Words) रोल नं. (शब्दों में) :   |                           |   |  |
| सम                          | य : 2 घण्टे छंट  | नी प                      |   | अधिकतम अंक : 85  |
| Tir                         | me: 2 Hours Scre   | enir                      | ng Test   | Maximum Marks: 85  |
| No operated & desired IM 1. | LEASE READ THIS PAGE CAREFULLY.  Ote: Candidate should remove the sticker seal and the superintendent and should thereafter check and sure that this Booklet contains all the 32 pages and the bottom of each & every page. If you find an fect, variation, torn or unprinted page, please have placed at once before you start answering.  MPORTANT INSTRUCTIONS:  The Answer sheet of a candidate who does not write his Roll No., or writes an incorrect Roll No on the title page of the Booklet and in the space provided on the Answer sheet will neither be evaluated nor his result declared.  The paper contains 170 questions.  Attempt all questions as there will be no Negative Marking.  The questions are of objective type. Here is an example. Question: 8 Taj Mahal was built by  (A) Sher Shah  (B) Aurangzeb  (C) Akbar  (D) Shah Jahan  The correct answer of this question is Shah Jahan You will therefore darken the circle with ink perbelow column (D) as shown below:  A B C D  Q.8 O O O | ी नो हिट कि पृष्क तो मह 1 | ा कर इस पुस्तिका को खोलें 3<br>इसमें 32 पृष्ठ हैं और सभी पृ<br>ट पर सबसे ऊपर दिये गये कोड़<br>उत्तर देने से पहले तुरन्त इसे द<br>इत्त्वपूर्ण निर्देश :<br>जो प्रत्याशी अपनी पुस्तिका के<br>स्थान पर अपना रोल नं. नहीं<br>पुस्तिका की न तो जाँच की ज्<br>घोषित किया जायेगा ।<br>प्रश्न पुस्तिका में 170 प्रश्न है<br>सभी प्रश्न हल करें क्योंकि न<br>प्रश्न उद्देश्य पूरक है । उदाह<br>प्रश्न : 8 ताज महल का निम<br>(A) शेरशाह<br>(C) अकबर<br>इस प्रश्न का सही उत्तर है शा<br>कॉलम (D) के नीचे प्रश्न 8 व<br>वाले पेन से पूरा भर देंगे, जैर<br>A B C<br>Q.8 O O O<br>प्रत्येक प्रश्न का केवल एक स् | ालक द्वारा घोषणा पर ही स्टीकर सील मौर जाँच कर लें और सुनिश्चित कर लें और सुनिश्चित कर लें हिंचें के नीचे दिये गये कोड नम्बर पहले हैं नम्बर से मिला लें । यदि कोई त्रुटि पायें बदल लें ।  क मुख्य पृष्ठ एवं उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट लिखेगा या गलत लिखेगा उसकी उत्तर वायेगी और न ही उसका परीक्षा परिणाम  हैं ।  कारात्मक अंकन नहीं होगा ।  रण के तौर पर  ण ने करवाया था ।  (B) औरंगजेब  (D) शाहजहाँ हजहाँ । इसलिये आप उत्तर पुस्तिका के के सामने दिये गये खाली वृत्त को स्याही हा कि नीचे दर्शाया गया है ।  D  सही उत्तर है । यदि आप एक से अधिक |
| 5.                          | Each question has only one correct answer. If you give more than one answer, it will be considered wrong and it will not be evaluated. Changing cutting, overwriting and erasing of an answe will be treated as wrong answer.  | 1                         | किया जायेगा ।<br>(बदलने, काटने, दोबारा वि<br>समझा जायेगा)   | झा जायेगा और उसका मूल्यांकन नहीं<br>लेखने या मिटाने से उत्तर को गलत<br>। उसे ही रफ कार्य के लिये प्रयोग करें ।   |
| 6.                          | The space for rough work wherever provided may be utilized by the candidate. You are not to use any portion of the Answer Sheet for rough work.  | 7                         |   | किसी भी भाग को रफ कार्य के लिये  |
| 7.                          | Do not mutilate this booklet in any manner. Seriou damage/mutilation may entail disqualification.  | 7.                        |   | हो खराब न करें । गम्भीर रूप से नष्ट/<br>को अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।  |
| 8.                          | Do not leave your seat until the Answer Sheets hav been collected at the close of the examination.   | 8.                        |   | छोड़ें जब तक उत्तर-पुस्तिका को परीक्षा   |
| 9.                          | Candidate will not leave the examination room til<br>stipulated time is over and only after he ha<br>handed over the Answer Sheet to the staff or  | ,   9.                    | प्रत्याशी तब तक परीक्षा हॉल   | ा नहीं छोड़ेगा या बाहर नहीं जायेगा जब<br>त नहीं हो जाता और वह अपनी उत्तर-  |

Code No. : C-573 /2019/Series-A

## **JE Electrical 715 Post Code**

Space For Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



## **QUESTION BOOKLET**

| This question paper contains 170 questions. / इस प्रश्न पत्र में 170 प्रश्न हैं। All questions are compulsory. / सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। One question carries half mark only. / एक प्रश्न के लिए केवल आधा अंक है। |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| mum Marks : <b>85</b><br>: <b>2</b> Hours  |   | अधिकतम अंक : 85<br>समय : 2 घण्टे  |  |  |
| resistance of 0.15 ohms. The potential cell is:  | al difference across  | s the terminals of the  |  |  |
| रही है। सैल के सिरों के बीच विभवान्तर है   |   | .0A की धारा प्रवाहित ही<br>(D) 1.20V  |  |  |
| source and 108 W when connected  |   |   |  |  |
| एक कुण्डली को 30 V DC स्रोत को जो 30 V AC स्रोत से जोड़ने पर 108 W की खप   | त होती है। कुण्डली क  | । प्रतिघात है   |  |  |
| (A) Increase<br>(C) Remains constant<br>प्रदाय आवृत्ति में वृद्धि के समक्ष किसी पदार्थ की  | (B) Decrease<br>(D) Becomes Ze<br>ो परावैद्युत हानि   | ro  |  |  |
| (A) Capacitive (B) Inductive एक समानान्तर परिपथ अनुनाद में होता है जब  | (C) Susceptive<br>प्रवेश्यता शुद्धृतः है  | mittance is purely :<br>(D) Conductive<br>(D) चालकता  |  |  |
| (A) Dimensions of the conductor  | rial<br>(B) चालक पदार्थ व   |   |  |  |
| 1  | nestions are compulsory. / सभी प्रश्न अनि<br>question carries half mark only. / एक प्र<br>mum Marks : 85<br>: 2 Hours  A current of 2.0 A passes through<br>resistance of 0.15 ohms. The potential<br>cell is : 0.15 ओह्म आन्तिरक प्रतिरोध वाली 1.5 V रिं<br>रही है । सैल के सिरों के बीच विभवान्तर है (A) 1.35V (B) 1.50V  The power consumed by a coil is 3<br>source and 108 W when connected to coil is : एक कुण्डली को 30 V DC स्रोत को जो 30 V AC स्रोत से जोड़ने पर 108 W की खप<br>(A) 3 ohms (B) 4 ohms  With increase in supply frequency, the (A) Increase<br>(C) Remains constant<br>प्रदाय आवृत्ति में वृद्धि के समक्ष किसी पदार्थ के (A) बढ़ेगी (B) घटेगी  A parallel circuit is said to be in reson (A) Capacitive (B) Inductive एक समानान्तर परिपथ अनुनाद में होता है जब प्र<br>(A) धारिता (B) प्रेरकता  Specific resistance of a conductor de (A) Dimensions of the conductor (B) Composition of conductor mater (C) Resistance of the conductor (D) Both (A) and (B) चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर होता है (A) चालक के आयाम पर | nestions are compulsory. / सभी प्रश्न अनिवार्य हैं । question carries half mark only. / एक प्रश्न के लिए केवल आध्याप्ता Marks : 85 : 2 Hours  A current of 2.0 A passes through a cell of e.m.f 1. resistance of 0.15 ohms. The potential difference across cell is : 0.15 ओह्म आन्तिरक प्रतिरोध वाली 1.5 V वि.वा.ब. की सैल से 2 रही है । सैल के सिरों के बीच विभवान्तर है (A) 1.35V (B) 1.50V (C) 1.00V  The power consumed by a coil is 300 W when connected to a 30 V AC sour coil is : एक कुण्डली को 30 V DC स्रोत को जोड़ने पर 300 W पॉवर 30 V AC स्रोत से जोड़ने पर 108 W की खपत होती है । कुण्डली क (A) 3 ohms (B) 4 ohms (C) 5 ohms  With increase in supply frequency, the dielectric loss in (A) Increase (B) Decrease (C) Remains constant (D) Becomes Ze प्रदाय आवृत्ति में वृद्धि के समक्ष किसी पदार्थ की परावैद्युत हानि (A) बढ़ेगी (B) घटेगी (C) नियत रहेगी  A parallel circuit is said to be in resonance when the adr (A) Capacitive (B) Inductive (C) Susceptive एक समानान्तर परिपथ अनुनाद में होता है जब प्रवेश्यता शुद्धतः है (A) धारिता (B) प्रेरकता (C) सुग्राहिता  Specific resistance of a conductor depends upon : (A) Dimensions of the conductor (B) Composition of conductor material (C) Resistance of the conductor (D) Both (A) and (B) चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर होता है (A) चालक के आयाम पर (B) चालक पदार्थ वे |  |  |

| 6.   | Piezoelectric effect is generally obser          | ved in    | n:                |              |                  |
|------|--|-----------|-------------------|--------------|------------------|
|      | (A) Insulators                                   | (B)       | Insulators and    | d sem        | iconductors      |
|      | (C) Conductors and superconductors               | s(D)      | Conductors a      | nd se        | miconductors     |
|      | दाब-विद्युत प्रभाव सामान्यतः दिखाई देता है       |           |                   |              | 5*               |
|      | (A) रोधक में                                     | \ /       | रोधक और अर्ध      |              |                  |
|      | (C) चालक और अतिचालक में                          | (D)       | चालक और अध        | चिालव        | ह में            |
| 7.   | Which of the following inductors will            | l have    | e the least edd   | y curi       | ent losses?      |
|      | (A) Air cored                                    | (B)       | Iron cored        |              |                  |
|      | (C) Wooden cored                                 | (D)       | Laminated ir      | on co        | red              |
|      | निम्न से किस प्रेरक में न्यूनतम भंवर धारा हानि ह | होगी ?    |                   |              |                  |
|      | (A) वायु क्रोडित                                 | ` /       | लौह क्रोडित       |              |                  |
|      | (C) लकड़ी क्रोडित                                | (D)       | लैमिनैटेड लौह ब्र | नोडित        |                  |
|      |  |           |                   |              |                  |
| 8.   | A single phase transformer when su               |           |                   | -            | •                |
|      | current loss of 50 W. If the transform           | ner is    | connected to      | a vol        | tage of 330 V,   |
|      | 50 Hz, the eddy current loss will be:            | -0.11     | ~                 | <u>.</u> . د |                  |
|      | एक एकल कला ट्रांसफॉर्मर को जब 220 V, 5           |           |                   |              |                  |
|      | होती है। यदि ट्रांसफॉर्मर को 330 V, 50 Hz होगी   | ટ વાલ્લ   | रता स जाड़ा जात   | ∥ હ, લ       | ता मवर धारा हा।न |
|      |  | (C)       | 75 W              | (D)          | 50 W             |
|      | (A) 108.75 W (B) 112.5 W                         | (C)       | 73 <b>VV</b>      | (D)          | 30 W             |
| 9.   | The phasor diagram of a transformer              | on lo     | ad can be drav    | vn on        | ly if we know:   |
|      | (A) Equivalent circuit parameters of             |           |                   |              |                  |
|      | (B) Load Current                                 |           |                   |              |                  |
|      | (C) Load power factor                            |           |                   |              |                  |
|      | (D) All of these                                 |           |                   |              |                  |
|      | भारण पर किसी ट्रांसफॉर्मर का फेज़र आरेख खीं      | चा जा     | सकता है, यदि ह    | में ज्ञात    | है               |
|      | (A) ट्रांसफॉर्मर के तुल्य परिपथ प्राचल           | (B)       | भार धारा          |              |                  |
|      | (C) भार शक्ति गुणक                               | (D)       | यह सभी            |              |                  |
| 10.  | If the percentage resistance of a po             | wer 1     | transformer fo    | or sec       | ondary side is   |
| 10.  | 2.5 % and turn ratio is 1:10, the perc           |           |                   |              | <u>-</u>         |
|      | primary will be:                                 | 311100    | , o socondary r   |              |                  |
|      | यदि किसी पॉवर ट्रांसफॉर्मर के द्वितीयक पाश       | र्व में ! | प्रतिशत प्रतिरोध  | 2.5%         | और टर्न अनुपात   |
|      | 1:10 हो, तो प्राथिमक के प्रेषित प्रतिशत द्वितीय  |           |                   |              | <b>)</b>         |
|      | (A) 25 (B) 2.5                                   | (C)       | 0.25              | (D)          | 0.025            |
| Code | No. : C-573/2019/Series-A 4                      |           |                   |              |                  |

| 11.        | The transformer efficiency will be m              | axımı           | um at a power factor of   |
|------------|---|-----------------|---|
|            | (A) 0.8 leading                                   | (B)             | Unity   |
|            | (C) 0.8 Lagging                                   | (D)             | 0.5 lagging or leading  |
|            | निम्न शक्ति गुणक पर ट्रांसफॉर्मर दक्षता अधिक      | तम होग          | fil see a see |
|            | (A) 0.8 अ <del>ग्र</del>                          | (B)             | एकक   |
|            | (C) 0.8 पश्च                                      | (D)             | 0.5 अग्र अथवा पश्च  |
| 12.        | The all day efficiency of a distribution          | on trai         | nsformer will be high with:   |
|            | (A) Copper losses                                 | (B)             | Iron losses   |
|            | (C) Operating Temp.                               | (D)             | Low copper as well as iron losses   |
|            | किसी वितरण ट्रांसफॉर्मर की पूर्ण दिवस दक्षता      | उच्च हे         | ोगी   |
|            | (A) ताम्र हानियों के साथ                          | (B)             | लौह हानियों के साथ  |
|            | (C) प्रचालन तापमान के साथ                         | (D)             | निम्न ताम्र और लौह हानियों के साथ   |
| 10         | T 4 C 41 1 41                                     |                 | × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×   |
| 13.        | In a power transformer, the breather              | is pro          | vided in order to:  |
|            | (A) Filter transformer oil                        |                 |   |
|            | (B) Prevent ingress of moisture with              |                 |   |
|            | (C) Provide oxygen to the cooling of              |                 | 20  |
|            | (D) Provide fresh air for increasing              |                 |   |
|            | पॉवर ट्रांसफॉर्मर में श्वासक इस उद्देश्य से दिए र |                 | : a second  |
|            | (A) ट्रांसफॉर्मर तैल को फिल्टर करने के लिए        |                 |   |
|            | (B) हवा के साथ नमी के प्रवेश को रोकने के          |                 |   |
|            | (C) शीतलन तैल को ऑक्सीजन देने के लिए              |                 |   |
|            | (D) शीतलन प्रभाव बढ़ाने के लिए ताजी हवा           | ा देने के       | 5 लिए   |
| 14.        | The most essential condition for p                | narall <i>i</i> | el operation of two single phase  |
| <b>.</b>   | transformers is that they should have             |                 | -   |
|            | (A) kVA rating                                    |                 | Percentage impedance  |
|            | (C) Polarity                                      |                 | Voltage ratio   |
|            | दो एकल कला ट्रांसफॉर्मरों के समान्तर प्रचात       |                 |   |
|            | समान होना चाहिए।                                  |                 | ·   |
|            | <del></del>                                       | П (C)           | ध्रवणता (D) वोल्टता अनुपात  |
|            |   | ( )             |   |
| <b>15.</b> | In a DC motor, the windage loss is p              | ropor           | tional to:  |
|            | (A) Supply Voltage                                | (B)             | Square of supply voltage  |
|            | (C) Square of flux density                        | (D)             | Square of armature speed  |
|            | DC मोटर में विंडेज हानि इसके समानुपाती होत        | ती है :         |   |
|            | (A) आपूर्ति वोल्टता                               | (B)             | आपूर्ति वोल्टता का वर्ग   |
|            | (C) फ्लक्स घनत्व का वर्ग                          | (D)             | आपूर्ति वोल्टता का वर्ग<br>आर्मेचर चाल का वर्ग  |
|            |   | . /             |   |

| 16.  | Laminated yoke i<br>(A) Speed Regul<br>(C) Temperature<br>DC मोटर में परलित र<br>(A) गति नियमन                                | lations<br>: rise<br>पोक कम कर सक                                      | (B)<br>(D)<br>ज्ता है                                    | Iron Loss<br>Sparking on                                |                                   | भार पर स्फुलिंगन   |
|------|---|--|--|---|-----------------------------------|--|
| 17.  | A 04 pole DC ge<br>pitch is :<br>किसी 16 कुण्डली वा<br>(A) 32   |  |  | । लैप वाइण्डिंग ह                                       |                                   | अन्तराल है   |
| 18.  | Determine the fl<br>connected condu<br>while running at<br>240 तरंग संयोजी चा<br>500 V की खुला परि<br>(A) 0.129 Wb            | ctors which ;<br>1000 RPM.<br>लकों वाली 06 धृ<br>पथ वोल्टता उत्पः      | generates aı<br>पुव DC मशीन<br>न्न करती है, के           | n open circu<br>, जो 1000 RP                            | it vol<br>M पर<br>लक्स इ          | tage of 500 V<br>परिचालन के दौरान<br>गत कीजिए।             |
| 19.  | The current draw<br>and back e.m.f 20<br>0.5 ओह्म आर्मेचर प्र<br>गई धारा है<br>(A) 40 A                                       | 00 V is :  | V पश्च वि.वा   |   | V D                               |  |
| 20.  | The direction of r<br>(A) Fleming's ri<br>(C) Lenz's law<br>किसी DC मोटर की घ<br>(A) फ्लेमिंग का दाय<br>(C) लेन्ज का नियम     | otation of a D<br>ght hand rule<br>पूर्णन की दिशा नि<br>गँ हाथ का नियम | C motor car<br>(B)<br>(D)<br>धीरित की जा द<br>द्वारा (B) | n be determir<br>Fleming's le<br>Ampere's la<br>सकती है | ned by<br>eft har<br>w<br>पाँ हाथ | v :<br>nd rule<br>का नियम द्वारा                           |
| 21.  | A 400 V DC shur<br>of motor are 0.5 of<br>from full load to r<br>एक 400V DC शंट<br>क्रमशः 0.5 ओह्म औ<br>भार से शून्य भार पर ग | ohms and 200<br>no load when<br>मोटर शून्य भार<br>र 200 ओह्म हैं।      | ohms respe<br>DC shunt m<br>पर 5 A लेती<br>DC शंट मोट    | ectively. Wha<br>notor takes 50<br>है। मोटर के ३        | t is th<br>) A on<br>आर्मेचर      | e ratio of speed<br>I full load ?<br>स्और क्षेत्र प्रतिरोध |
| Code | (A) 0.94<br>No : C 573/2019/So  | (B) 0.8  | (C)  | 0.6   | (D)                               | 0.4  |
| Coue | No.: C-573/2019/Se  | HES-A  | 6  |   |                                   |  |

| 22. | 2. The torque-speed characteristics of a DC shunt motor is :      |           |  |  |  |
|-----|---|-----------|--|--|--|
|     | (A) A rectangular   | (B)       | A drooping straight line                   |  |  |
|     | (C) A parabola  | (D)       | None of the above                          |  |  |
|     | किसी DC शंट मोटर का चाल-बलाघूर्ण अभिव                             | नक्षण     | है   |  |  |
|     | (A) आयताकार   | (B)       | झुकी हुई सीधी रेखा                         |  |  |
|     | (C) परवलय   | (D)       | उपरोक्त में से कोई नहीं                    |  |  |
| 23. | For efficient operation of DC shunt r in the armature should be : | notor     | , the additional resistance inserted       |  |  |
|     | (A) Increased in steps  | (B)       | Cut-out in steps                           |  |  |
|     | (C) Left in the armature circuit                                  | (D)       | Removed immediately after start            |  |  |
|     | DC शंट मोटर के दक्ष प्रचालन के लिए, आर्मेच                        | ार में नि | विष्ट अतिरिक्त प्रतिरोध                    |  |  |
|     | (A) सोपानों में वर्धित होना चाहिए।                                | (B)       | सोपानों में विच्छेद होना चाहिए ।           |  |  |
|     | (C) आर्मेचर परिपथ के बायें होना चाहिए।                            | (D)       | स्टार्ट होने के बाद तुरन्त हटा लेना चाहिए। |  |  |
|     |   |           |  |  |  |
| 24. | The field system of an alternator is us                           | sually    | excited at:                                |  |  |
|     | (A) 250/250 V DC  | (B)       | 110/220 V DC                               |  |  |
|     | (C) 03 phase 50 c/s, 400 V  | ,         | 230 V AC                                   |  |  |
|     | किसी आल्टरनेटर का क्षेत्र निकाय प्रायः उत्तेजिल                   | त होता    | े हैं                                      |  |  |
|     | (A) 250/250 V DC  | (B)       | 110/220 V DC                               |  |  |
|     | (C) 03 कला 50 c/s, 400 V  | (D)       | 230 V AC                                   |  |  |
| 25. | The angle between induced e.m.f a single phase alternator is      | and te    | erminal voltage on no load for a           |  |  |
|     | (A) 180 Degree (B) 90 Degree                                      | (C)       | 0 Degree (D) None of these                 |  |  |
|     | एकल कला आल्टरनेटर के लिए शून्य भार प                              | र प्रेरित | । वि.वा.ब. और टर्मिनल वोल्टता के बीच       |  |  |
|     | (A) 180 डिग्री (B) 90 डिग्री                                      | (C)       | 0 डिग्री (D) इनमें से कोई नहीं             |  |  |
| 26. | Power factor of an alternator driven changed by changing its:     | by co     | onstant speed prime mover can be           |  |  |
|     | (A) Speed   | (B)       | Load                                       |  |  |
|     | (C) Field excitation  | (D)       | Phase sequence                             |  |  |
|     | सम चाल प्राइम मूवर द्वारा चलित आल्टरनेटर                          | का        | गक्ति गुणक इसमें परिवर्तन करके परिवर्तित   |  |  |
|     | किया जा सकता है :<br>(A) चाल (B) भार                              | (C)       | क्षेत्र-उत्तेजन (D) कला अनुक्रम            |  |  |
|     |   |           |  |  |  |

| 27.          | . A leading power factor load on an alternate regulations shall be: | ator implies that its voltage  |
|--------------|---|--------------------------------|
|              | (A) Positive (B) Negative (C) Zero                                  |                                |
|              | किसी आल्टरनेटर पर अग्र शक्ति गुणक भार सूचित करता है                 |                                |
|              | (A) धनात्मक (B) ऋणात्मक (C) शून्य                                   | (D) इनमें से कोई भी            |
| 28.          | 1   |                                |
|              |   | ries with load                 |
|              | 1   | ries with P.F.                 |
|              | 03 कला तुल्यकाली मोटर में क्षेत्र फ्लक्स का परिमाण                  |                                |
|              | (A) सभी भारों पर नियत रहता है। (B) भार                              |                                |
|              | (C) चाल के साथ बदलता है। (D) शक्ति                                  | ते गुणक के साथ बदलता है।       |
| 29.          | . In a 03 phase synchronous motor, the magnitude                    | ude of back emf set up in the  |
| <b>4 7</b> • | stator depends on:  | ade of back chir set up in the |
|              | -   | oply voltage                   |
|              | · /   | ad on motor                    |
|              | 03 कला तुल्यकाली मोटर में स्टेटर में पश्च वि.वा.ब. व्यवर            |                                |
|              | •   | टता आपूर्ति पर                 |
|              |   | र पर भार पर                    |
|              |   |                                |
| <b>30.</b>   | . A 03 phase synchronous motor is widely used to                    | for:                           |
|              | (A) P.F. improvement  |                                |
|              | (B) Control of voltage at the end of a transmis                     | ssion line                     |
|              | (C) High torque loads   |                                |
|              | (D) Fluctuating loads   |                                |
|              | 03 कला तुल्यकाली मोटर का व्यापक रूप से प्रयोग होता है               | <u> </u>                       |
|              | (A) शक्ति गुणक सुधार के लिए   |                                |
|              | (B) पारेषण लाइन के अन्त में वोल्टता नियन्त्रण के लिए                |                                |
|              | (C) उच्च बल-आघूर्ण भार के लिए                                       |                                |
|              | (D) उच्चावच भार के लिए  |                                |
| 31.          | . In a hysteresis motor, the rotor case must have                   | :                              |
|              | (A) Retentivity (B) Susceptibility (C) Res                          | sistivity (D) None of these    |
|              | हिस्टेरिसिस मोटर में, रोटर केस में होनी चाहिए                       |                                |
|              | (A) धारणता (B) सुग्राहिता (C) प्रति                                 | रोधकता (D) इनमें से कोई नहीं   |

|                                   | <b>32.</b> What is the material of slip rings in an induction machine?   |  |  |   |   |   |  |   |
|-----------------------------------|--|--|--|---|---|---|--|---|
|                                   | (A) Carbon   |  |  | (B)   | Nickel  |   |  |   |
|                                   | (C) Phosphor B   | ronze  |  | (D)   | Manganese   |   |  |   |
|                                   | प्रेरण मशीन में सर्पी व  |  | पदार्थ होता है   | , ,   | C   |   |  |   |
|                                   | (A) कार्बन   | (B)  | •  | (C)   | फॉस्फोर ब्रोंज  | (D)   | मेंगनीज  |   |
| 33.                               | The maximum prunning at a slip<br>4% सर्पण पर चल रह  | of 4 %   | is:  | _   |   |   | _  | r |
|                                   | (A) 850 RPM  |  |  |   |   |   |  |   |
| 34.                               | What is the frequat 02 % slip?<br>2% सर्पण पर प्रचालि  |  |  |   |   |   |  | 5 |
|                                   |  |  |  |   | _   |   |  |   |
|                                   | (A) 01 c/s   | (D)  | 1000/8   | (C)   | 02C/S   | (D)   | 50 c/s   |   |
| 35.                               | The power factor when it will open   |  | -  | duction   | motor is lik  | ely to  | o be maximum   | 1 |
|                                   | (A) Full load  |  |  | (B)   | No load   |   | ##<br>##\$@  |   |
|                                   | (C) Maximum s  | -  |  |   | Maximum to  | _   | 1=15/25  |   |
|                                   | 03 कला प्रेरण मोटर   | का अधि   | कितम शक्ति गु  | णक सम्भ   | व है जब यह प्रच   | ालित ह  | होगी   |   |
|                                   | (A) पूर्ण भार पर   |  |  | (B)   | शून्य भार पर  |   |  |   |
|                                   | (C) अधिकतम सर्प  | ण पर   |  | (D)   | अधिकतम बल   | -आघू  | र्ग पर   |   |
|                                   |  |  | امسنده ماما  |   |   | 4   | ver single cage  |   |
| 36.                               | The advantage of motor is that its:  |  | ole squirrei   | cage i  | nduction mo   | tor o   | ver single eage  | ) |
| 36.                               | motor is that its:   | 7  |  |   | nduction mo P.F. is highe   |   | voi single eage  | 2 |
| 36.                               |  | s<br>high  |  | (B)   |   | r.  |  | 2 |
| 36.                               | motor is that its: (A) Efficiency i  | s higher.  | er.  | (B)<br>(D)  | P.F. is highe<br>Starting curr  | r.  |  | 2 |
| 36.                               | motor is that its: (A) Efficiency i (C) Slip is large  | s highe<br>r.<br>का एक   | er.<br>ज्ल पिंजरी मोटर   | (B)<br>(D)<br>र पर लाभ  | P.F. is highe<br>Starting curr  | r.<br>ent is  | lower.   | 2 |
| 36.                               | motor is that its: (A) Efficiency i (C) Slip is large द्वि-पिंजरी प्रेरण मोटर  | s high<br>er.<br>का एक<br>उच्च होर्त   | er.<br>ज्ल पिंजरी मोटर<br>ो है ।   | (B)<br>(D)<br>र पर लाभ<br>(B)   | P.F. is highe<br>Starting curr<br>यह है कि  | r.<br>ent is<br>णक उच्                                  | lower.<br>च होता है ।  |   |
|                                   | motor is that its: (A) Efficiency i (C) Slip is large द्वि-पिंजरी प्रेरण मोटर (A) इसकी दक्षता उ (C) इसका सर्पण 3   | s high<br>er.<br>का एक<br>उच्च होर्त्<br>मधिक हे   | er.<br>ज्ल पिंजरी मोटर<br>हे ।<br>ता है ।  | (B)<br>(D)<br>र पर लाभ<br>(B)<br>(D)  | P.F. is highe<br>Starting curr<br>यह है कि<br>इसका शक्ति गु<br>इसकी प्रारम्भन   | er.<br>Tent is<br>णक उन्धारा नि                         | lower.<br>च होता है ।  |   |
| <ul><li>36.</li><li>37.</li></ul> | motor is that its : (A) Efficiency i (C) Slip is large द्वि-पिंजरी प्रेरण मोटर (A) इसकी दक्षता उ (C) इसका सर्पण अ  Capacitor in a sin  | s high<br>er.<br>का एक<br>उच्च होर्त्<br>गधिक हे<br>ngle pl  | er.<br>ज्ल पिंजरी मोटर<br>है ।<br>ोता है ।<br>nase inductio                              | (B)<br>(D)<br>र पर लाभ<br>(B)<br>(D)  | P.F. is highe<br>Starting curr<br>यह है कि<br>इसका शक्ति गु<br>इसकी प्रारम्भन<br>or is used for :                                 | r.<br>rent is<br>णक उच्<br>धारा नि                      | lower.<br>च्च होता है ।<br>भेम्न होती है ।                                 |   |
|                                   | motor is that its : (A) Efficiency i (C) Slip is large द्वि-पिंजरी प्रेरण मोटर (A) इसकी दक्षता उ (C) इसका सर्पण 3  Capacitor in a sin (A) Improving t                                      | s high<br>er.<br>का एक<br>उच्च होर्त<br>मधिक हे<br>ngle ph   | er.<br>ज्ल पिंजरी मोटर<br>हे ।<br>ता है ।<br>nase inductio                               | (B)<br>(D)<br>र पर लाभ<br>(B)<br>(D)<br>on moto<br>(B)                        | P.F. is highe<br>Starting curr<br>यह है कि<br>इसका शक्ति गु<br>इसकी प्रारम्भन<br>or is used for :<br>Improving s                  | r.<br>rent is<br>णक उन्<br>धारा नि                      | lower.<br>च होता है ।<br>सम्न होती है ।<br>torque                          |   |
|                                   | motor is that its: (A) Efficiency i (C) Slip is large द्वि-पिंजरी प्रेरण मोटर (A) इसकी दक्षता उ (C) इसका सर्पण 3  Capacitor in a sin (A) Improving to (C) Starting the                     | s high<br>er.<br>का एक<br>उच्च होर्त्<br>निधक ह<br>ngle pl<br>the P.F<br>motor                             | er.<br>ज्ल पिंजरी मोटर<br>है ।<br>होता है ।<br>nase inductio                             | (B)<br>(D)<br>र पर लाभ<br>(B)<br>(D)<br>on moto<br>(B)<br>(D)                 | P.F. is highe<br>Starting curr<br>यह है कि<br>इसका शक्ति गु<br>इसकी प्रारम्भन<br>or is used for :                                 | r.<br>rent is<br>णक उन्<br>धारा नि                      | lower.<br>च होता है ।<br>सम्न होती है ।<br>torque                          |   |
|                                   | motor is that its : (A) Efficiency i (C) Slip is large द्वि-पिंजरी प्रेरण मोटर (A) इसकी दक्षता उ (C) इसका सर्पण उ  Capacitor in a sin (A) Improving t (C) Starting the एकल कला प्रेरण मोटर | s higher.<br>द का एक<br>उच्च होर्त्<br>मधिक हे<br>ngle pl<br>the P.F<br>motor<br>टर में संध                | er.<br>ज्ल पिंजरी मोटर<br>है ।<br>ता है ।<br>nase inductio<br>गारित्र प्रयुक्त हो        | (B)<br>(D)<br>र पर लाभ<br>(B)<br>(D)<br>on moto<br>(B)<br>(D)<br>ता है        | P.F. is highe<br>Starting curr<br>यह है कि<br>इसका शक्ति गु<br>इसकी प्रारम्भन<br>or is used for :<br>Improving si<br>Reducing the | er.<br>Pent is<br>णक उच्<br>धारा नि<br>taring<br>e harr | lower.<br>च होता है ।<br>सम्म होती है ।<br>torque<br>monics                |   |
|                                   | motor is that its: (A) Efficiency i (C) Slip is large द्वि-पिंजरी प्रेरण मोटर (A) इसकी दक्षता उ (C) इसका सर्पण 3  Capacitor in a sin (A) Improving to (C) Starting the                     | s high<br>er.<br>का एक<br>उच्च होर्त्<br>तिधक हे<br>ngle pl<br>the P.F<br>motor<br>टर में संध्<br>पुधार के | er.<br>ज्ल पिंजरी मोटर<br>है ।<br>ता है ।<br>nase inductio<br>गारित्र प्रयुक्त हो<br>लिए | (B)<br>(D)<br>र पर लाभ<br>(B)<br>(D)<br>on moto<br>(B)<br>(D)<br>ता है<br>(B) | P.F. is highe<br>Starting curr<br>यह है कि<br>इसका शक्ति गु<br>इसकी प्रारम्भन<br>or is used for :<br>Improving s                  | r.<br>rent is<br>णक उन्<br>धारा नि<br>taring<br>e harr  | lower.<br>च होता है।<br>सेम्न होती है।<br>torque<br>monics<br>सुधार के लिए |   |

| 38. |   | nductor have                                 |                  |                              |         |  |  |
|-----|---|--|------------------|------------------------------|---------|--|--|
|     |   | onductors made of                            |                  |                              |         |  |  |
|     |   | r conductors made                            |                  |                              |         |  |  |
|     | ` /   | conductors made of                           |                  |                              |         |  |  |
|     | ` /   | onductors made of                            | alumınıum.       |                              |         |  |  |
|     | ACSR चार  |  | 2-22-30.         |                              |         |  |  |
|     |   | वालक एलुमिनियम के ब                          |                  |                              |         |  |  |
|     | · /   | चालक एलुमिनियम के                            |                  |                              |         |  |  |
|     | · /   | रेक चालक एलुमिनियम                           |                  |                              |         |  |  |
|     | (D) काई च   | त्रालक एलुमिनियम के न                        | हा हात ह ।       |                              |         |  |  |
| 39. | The sag of  | f the conductors of                          | a transmissio    | on line is 2.5 mtrs when the | span is |  |  |
|     | _   |  |                  | ng tower is increased by 25  | -       |  |  |
|     | sag will:   | _  |                  | No                           |         |  |  |
|     | (A) Redu  | ice by 25%                                   | (B)              | Increase by 25 %             |         |  |  |
|     | ` /   | ice by 12.5%                                 | ` /              | Remains unchanged            |         |  |  |
|     | •   | <u>~</u>                                     |                  | ालकों का झोल 2.5 मीटर है ।   | अब यदि  |  |  |
|     | आलम्बन टॉ   | वर की ऊँचाई 25% से र                         | बढ़ाई जाती है, त | गो झोल होगा                  |         |  |  |
|     | (A) 25%   | घटा हुआ                                      | , ,              | 25% बढ़ा हुआ                 |         |  |  |
|     | (C) 12.5%   | % घटा हुआ                                    | (D)              | अपरिवर्तित                   |         |  |  |
| 40  | 1000/   | · · ·  |                  |                              |         |  |  |
| 40. |   | ing efficiency mean                          |                  |                              |         |  |  |
|     | ` /   | of the insulator disc                        |                  |                              |         |  |  |
|     | ` '   | potential across each                        |                  | 1'                           |         |  |  |
|     | ·   | ll potential across ea                       | ach insulator    | disc                         |         |  |  |
|     | ` '   | e of these<br>1 दक्षता का अर्थ है            |                  |                              |         |  |  |
|     |   | । दक्षता का अथ ह<br>ठा विद्युतरोधक में से एक | ਕੀ ਹੀ ਵੈ         |                              |         |  |  |
|     | ` '   |  |                  |                              |         |  |  |
|     | (B) प्रत्येक चक्रिका पर शून्य विभव<br>(C) प्रत्येक चक्रिका विद्युतरोधक पर समान विभव |  |                  |                              |         |  |  |
|     | (C) $x(44)$<br>(D) $x = x^2 + x^2$  | •  | र समाग ।अमअ      |                              |         |  |  |
|     | (D) 314 (   | १ अगर गरा                                    |                  |                              |         |  |  |
| 41. | Which of  | the following result                         | ts in a symme    | etrical fault?               |         |  |  |
|     | (A) Singl   | le phase to earth fau                        | ılt (B)          | Phase to phase fault         |         |  |  |
|     | ` ′   | -  | ` ′              | Two phase to earth fault     |         |  |  |
|     | , ,   | जैन सममित दोष में परिण                       | , ,              | _                            |         |  |  |
|     |   | कला से भू–दोष                                | ` /              | कला से कला दोष               |         |  |  |
|     | (C) सभी त   | ीन कलाओं से भू–दोष <b>ः</b>                  | (D)              | दो कला से भू–दोष             |         |  |  |
|     |   |  |                  |                              |         |  |  |

| (A) External short circuits<br>(C) Internal short circuits<br>पॉवर ट्रांसफॉर्मर के इसके विरुद्ध रक्षण के लिए   | (B)<br>(D)<br>[DM]  | Overloads<br>Both (A) and (B)   |
|--|---|---|
| (C) आन्तरिक लघु पथन  |   | (A) और (B) दोनों  |
| (A) Low initial as well as maintenan (B) High starting torque (C) Possibility of speed control (D) Nearly constant speed विद्युत रेलवे रोलिंग मिल्स जैसे भारी कार्य (अत्यिधक उपयुक्त हैं                                     | ce co<br>हेवी ड्  | st  |
| (A) Induction motor<br>(C) Universal motor<br>घरेलू मिक्सर में किस मोटर का प्रयोग होता है?   | (B)<br>(D)  | Reluctance motor<br>Synchronous motor<br>सार्वत्रिक मोटर (D) तुल्यकालिक मोटर  |
| <ul><li>(A) Mercury thermometer</li><li>(C) Alcohol thermometer</li></ul>  | (B)<br>(D)<br>गता है<br>(B)   | Optical pyrometer None of these   |
| <ul> <li>(B) The maximum quantity it can me</li> <li>(C) The maximum non-linearity it can</li> <li>(D) None of these</li> <li>(A) न्यूनतम मात्रा जो यह माप सकता है।</li> <li>(B) अधिकतम मात्रा जो यह माप सकता है।</li> </ul> | easur<br>an me  | e   |
|  | (A) External short circuits (C) Internal short circuits पॉवर ट्रांसफॉर्मर के इसके विरुद्ध रक्षण के लिए हैं (A) बाहरी लघु पथन (C) आन्तरिक लघु पथन  DC series motors are very suitable electric railways rolling mills because (A) Low initial as well as maintenan (B) High starting torque (C) Possibility of speed control (D) Nearly constant speed (aद्युत रेलवे रोलिंग मिल्स जैसे भारी कार्य (व्युत रेलवे रोलिंग मिल्स जैसे भारी कारण (C) चाल नियन्त्रण की सम्भावना के कारण (D) लगभग नियत चाल के कारण (A) Induction motor (C) Universal motor चरेलू मिक्सर में किस मोटर का प्रयोग होता है? (A) प्रेरण मोटर (B) प्रतिष्टम्भ मोटर (C) पति प्रति वर्मामीटर (B) प्रतिष्टम्भ मोटर (C) पति पर्मामीटर (C) एल्कोहॉल थर्मामीटर (C) पर्काहॉल थर्मामीटर (C) पर्व वर्मामीटर (C) वर्मामीटर (C) वर्मामीटर (C) वर्मा | पॉवर ट्रासफॉमर के इसके विरुद्ध रक्षण के लिए IDMT (A) बाहरी लघु पथन (B) (C) आन्तरिक लघु पथन (D)  DC series motors are very suitable for electric railways rolling mills because of: (A) Low initial as well as maintenance co (B) High starting torque (C) Possibility of speed control (D) Nearly constant speed (A) Induction from the starting in the start |

| 47. | The scale of an electrodynamometer (A) Average value of the AC (C) Effective value of AC विद्युत डाइनेमोमीटर का पैमाना प्रायः पढ़ता है (A) AC का औसत मान (C) AC का प्रभावी मान  | (B)<br>(D)<br>(B)             | lly reads the :<br>Mean value of AC<br>Squared value of AC<br>AC का माध्य मान<br>AC का वर्ग मान |
|-----|---|-------------------------------|---|
| 48. | Which displacement transducer measurement? (A) LVDT (C) Potentiometer transducer यथार्थ और रेखीय मापन के लिए किस विस्थाप (A) LVDT (C) विभवमापी ट्रांसड्यूसर   | (B)<br>(D)<br>न ट्रांस<br>(B) | Strain Gauge<br>Capacitive displacement   |
| 49. | Early effect in a bipolar junction trans<br>(A) Fast turn on<br>(C) Large collector-base reverse bias<br>द्वि-ध्रुव संधि ट्रांजिस्टर में शीघ्र प्रभाव इसके का<br>(A) फास्ट टर्न ऑन<br>(C) वृहत् संग्राही आधारी उत्क्रमित बायस   | (B)<br>(D)<br>रण ह<br>(B)     | Fast turn off<br>Large emitter-base forward bias<br>ोता है :<br>फास्ट टर्न ऑफ                   |
| 50. | To obtain very high input and output topology mostly used is: (A) Voltage series (C) Voltage shunt पुनः निवेशन प्रवर्धक में अति उच्च निवेशी अँ प्रयुक्त टोपोलॉजी है: (A) वोल्टता श्रेणी (B) धारा श्रेणी   | (B)<br>(D)<br>रि नि           | Current series<br>Current shunt<br>र्गत प्रतिबाधा प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक                  |
| 51. | An ideal OP-AMP is an ideal: (A) Voltage controlled current source (B) Voltage controlled voltage source (C) Current controlled current source (D) Current controlled voltage source एक आदर्श OP-AMP है एक आदर्श (A) वोल्टता नियन्त्रित धारा स्रोत (C) धारा नियन्त्रित धारा स्रोत | ee.<br>ee.<br>ee.             | वोल्टता नियन्त्रित वोल्टता स्रोत<br>धारा नियन्त्रित वोल्टता स्रोत                               |
| 52. | A Zener diode when used in voltage s (A) Reverse bias region below the bi (B) Reverse breakdown region. (C) Forward bias region. (D) Forward bias constant current m एक जीनर डायोड को जब वोल्टता स्थायकारी प (A) भंजक वोल्टता के नीचे प्रतीप अभिनत क्षेत्र (C) अग्र अभिनत क्षेत्र | reako<br>ode.<br>गरिपथ<br>(B) | down voltage.<br>ों में प्रयोग किया जाता है, अभिनत होता है                                      |

- 53. The output of a logic gate is "1" when all its inputs are at logic "0". The gate is:
  - (A) A NAND or an EX-OR gate.
- (B) A NOT or an EX-NOR gate.
- (C) An OR or an EX-NOR gate एक लॉजिक गैट का निर्गत "1" है जब इसके सभी निवेश लॉजिक "0" पर हैं। गैट है:
- (D) An AND or an EX-OR gate.

(A) NAND अथवा EX-OR गैट

- (B) NOT अथवा EX-NOR गैट
- (C) OR अथवा EX-NOR गैट
- (D) AND अथवा EX-OR गैट
- The logical expression  $Y = A + \bar{A} B$ **54.**

 $Y = A + \bar{A}B$  का तार्किक व्यंजक है

- (A) AB
- (B) ĀB
- (D)  $\bar{A} + B$
- (D) A + B
- 55. Which of the following cannot be an input that is given to the PLC?
  - (A) Manual Switches


(B) Relays

(C) Sensors

(D) None of these


निम्न में से कौन एक निवेश नहीं हो सकता है, जो PLC को दिया जाता है ?

- (A) मैन्अल स्विच (B) रिले
- (C) सेन्सर
- (D) इनमें से कोई नहीं
- Consider the given circuit. In the circuit, the race around: **56.**



- (A) Does not occur.
- (B) Occurs when CLK is 0
- (C) Occurs when CLK is 1 and A = B = 1
- (D) Occurs when CLK is 1 and A = B = 0

दिए गए परिपथ का ध्यान कीजिए। इस परिपथ में रेस अराउण्ड



- (A) उत्पन्न नहीं होता है।
- (B) उत्पन्न होता है जब CLK 0 होता है।
- (C) उत्पन्न होता है जब CLK 1 और A = B = 1 होता है।
- (D) उत्पन्न होता है जब CLK 1 और A = B = 0 होता है।

| BJT and MC<br>एक आधुनिक   | OSFET is ca   | ılled:  |  |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|---|
| (A) GTO   | (B)   | FCT   | (C)  | IGBT  | (D)   | MCT   |
| voltage upto<br>एक थायरिस्टर<br>को प्रचालित कि                    | which the o<br>में 650V का<br>ज्या जा सकता  | device can be<br>PIV है, वोल्टता<br>है इससे दी जाती   | opera<br>सुरक्षा<br>है :   | nted is given<br>गुणक 2 है, तो  | by :<br>वोल्टता   |   |
| TRIACs can (A) Resistiv   | not be used   |   | ge reg   | gulator for a/a<br>Back e.m.f.  | an<br>load  |   |
| AC वोल्टता नि<br>(A) प्रतिरोधी                                    | ायामक में ट्राय<br>भार के लिए   | क (TRIAC) क   | ा उपये<br>(B)  | ाग नहीं किया ज<br>पश्च वि.वा.ब  | ा सकता<br>. भार के  | है<br>लिए   |
| (A) AC to I<br>पॉवर चौपर रूपा                                     | DC (B)<br>ान्तरित करता  | DC to DC  |  |   |   |   |
| cycle surge o<br>एक SCR में 5                                     | current will<br>0 Hz आपूर्ति<br>गी  | be<br>i के लिए अर्द्ध <sup>-</sup>  | चक्र प्र   | ोत्कर्ष धारा रेटिं  | ग 300   | 0A है । एक चक्र   |
| mode in case (A) RL (C) RLC ov एकल कला पूर्ण इससे बना हो : (A) RL | e load consi<br>verdamped<br>मेतु प्रतीपक   | sts of  | (B)<br>(D)<br>प्रर्तन में<br>(B)   | RLC underd<br>RLC critica<br>ोड में प्रचालित<br>RLC न्यून अव  | lamped<br>lly dan<br>केया जा<br>त्रमन्दित   | d<br>nped<br>। सकता है जब भार   |
|   | BJT and MC एक आधुनिक है, कहलाता है (A) GTO  A thyristor voltage upto एक थायरिस्टर हो प्रचालित वि (A) 1300V  TRIACs can (A) Resistiv (C) Induction AC वोल्टता नि (A) प्रतिरोधी (C) प्रेरक भार  A power che (A) AC to I पॉवर चौपर रूप (A) AC को में 5 प्रोत्कर्ष धारा हो (A) 1500A  A single ph mode in case (A) RL (C) RLC ov एकल कला पूर्ण इससे बना हो : (A) RL | BJT and MOSFET is cate एक आधुनिक शक्ति अर्धचाल है, कहलाता है (A) GTO (B)  A thyristor has a PIV voltage upto which the एक थायरिस्टर में 650V का को प्रचालित किया जा सकता (A) 1300V (B)  TRIACs can not be used (A) Resistive load (C) Inductive load AC वोल्टता नियामक में ट्रायर (A) प्रतिरोधी भार के लिए (C) प्रेरक भार के लिए (C) प्रेरक भार के लिए (C) प्रेरक भार के लिए (A) AC to DC (B) पाँवर चौपर रूपान्तरित करता है (A) AC को DC में (B)  An SCR has half cycle cycle surge current will एक SCR में 50 Hz आपूर्ति प्रोत्कर्ष धारा होगी (A) 1500A (B)  A single phase full brimode in case load consi (A) RL (C) RLC overdamped एकल कला पूर्ण सेतु प्रतीपक इससे बना हो : | BJT and MOSFET is called: एक आधुनिक शक्ति अर्धचालक जो BJT औ है, कहलाता है (A) GTO (B) FCT  A thyristor has a PIV of 650 V, the voltage upto which the device can be एक थार्यारस्टर में 650V का PIV है, वोल्टता को प्रचालित किया जा सकता है इससे दी जाती (A) 1300V (B) 650V  TRIACS can not be used in AC voltage (A) Resistive load (C) Inductive load AC वोल्टता नियामक में ट्रायक (TRIAC) कर (A) प्रतिरोधी भार के लिए (C) प्रेरक भार के लिए (C) प्रेरक भार के लिए  A power chopper converts: (A) AC to DC (B) DC to DC पॉवर चौपर रूपान्तरित करता है (A) AC को DC में (B) DC को DC में  An SCR has half cycle surge current cycle surge current will be एक SCR में 50 Hz आपूर्ति के लिए अर्द्ध प्रोत्कर्ष धारा होगी (A) 1500A (B) 6000A  A single phase full bridge inverter mode in case load consists of (A) RL (C) RLC overdamped एकल कला पूर्ण सेतु प्रतीपक को भार दिक्परिव इससे बना हो: (A) RL | BJT and MOSFET is called: एक आधुनिक शक्ति अर्धचालक जो BJT और MC है, कहलाता है (A) GTO (B) FCT (C)  A thyristor has a PIV of 650 V, the vo voltage upto which the device can be operated upto which the device can be upto which the device upto which the device upto which the device upto which the device can be upto which the device upto which the device upto which the device can be upto which the device | BJT and MOSFET is called: एक आधुनिक शक्ति अर्धचालक जो BJT और MOSFET की विश् है, कहलाता है (A) GTO (B) FCT (C) IGBT  A thyristor has a PIV of 650 V, the voltage safety voltage upto which the device can be operated is given एक थायरिस्टर में 650V का PIV है, वोल्टता सुरक्षा गुणक 2 है, तो को प्रचालित किया जा सकता है इससे दी जाती है: (A) 1300V (B) 650V (C) 325V  TRIACs can not be used in AC voltage regulator for a/a (A) Resistive load (B) Back e.m.f. (C) Inductive load (D) Resistive In AC वोल्टता नियामक में ट्रायक (TRIAC) का उपयोग नहीं किया ज (A) प्रतिरोधी भार के लिए (B) पश्च वि.वा.ब. (C) प्रेरक भार के लिए (B) पश्च वि.वा.ब. (C) प्रेरक भार के लिए (D) प्रतिरोधी प्रेरक  A power chopper converts: (A) AC to DC (B) DC to DC (C) DC to AC पॉवर चौपर रूपान्तरित करता है (A) AC को DC में (B) DC को DC में (C) DC को AC प्रेरक धारा होगी (A) 1500A (B) 6000A (C) 2121.32A  A single phase full bridge inverter can be operated mode in case load consists of (A) RL (B) RLC unders हमसे बना हो: (C) RLC overdamped (D) RLC critical एकल कला पूर्ण सेतु प्रतीपक को भार दिक्परिवर्तन मोड में प्रचालित हमसे बना हो: (A) RL (B) RLC न्यून अस्त | एक आधुनिक शक्ति अर्धचालक जो BJT और MOSFET की विशेषताओं है, कहलाता है (A) GTO (B) FCT (C) IGBT (D) A thyristor has a PIV of 650 V, the voltage safety factor voltage upto which the device can be operated is given by: एक थायरिस्टर में 650V का PIV है, बोल्टता सुरक्षा गुणक 2 है, तो बोल्टता को प्रचालित किया जा सकता है इससे दी जाती है: (A) 1300V (B) 650V (C) 325V (D)  TRIACs can not be used in AC voltage regulator for a/an (A) Resistive load (B) Back e.m.f. load (C) Inductive load (D) Resistive Inductiv AC वोल्टता नियामक में ट्रायक (TRIAC) का उपयोग नहीं किया जा सकता (A) प्रतिरोधी भार के लिए (B) पश्च वि.वा.ब. भार के (C) प्रेरक भार के लिए (D) प्रतिरोधी प्रेरक भार के हिए (D) प्रविरोधी प्रेरक भार के हिए (D) प्रतिरोधी प्रतिराधी प्रतिरोधी प्रतिराधी प्रतिरा |

| 63.        | . If holding current of a thyristor is 2mA, then latching current should be यदि एक थायरिस्टर की धारण धारा 2mA है, तो लैचिंग धारा होनी चाहिए |                                     |                |                    |             |                     |           | should be                  |
|------------|---|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------|----------------------------|
|            |   | 0.01A                               | (B)            |                    |             | 0.009Å              |           | 0.004A                     |
| 64.        | Thy   | ristor can be p                     | orotec         | ted from ov        | ver volta   | ges by using        |           |                            |
|            | (A)   | Voltage clan                        | nping          | device             | (B)         | Fuse                |           |                            |
|            | (C)   | Heat sink                           |                |                    | (D)         | Snubber circ        | cuit      |                            |
|            | इसके  | प्रयोग द्वारा थाय                   | रिस्टर व       | <b>ी अति वोल्ट</b> | ता से रक्षा | की जा सकती है       | :         |                            |
|            | (A)   | वोल्टता क्लैम्पिं                   | ग डिवा         | इस                 | (B)         | फ्यूज               |           |                            |
|            | (C)   | हीट सिंक                            |                |                    | (D)         | स्नबर परिपथ         |           |                            |
| 65.        |   | ical range of t<br>रेस्टर टर्न-ऑफ ः |                |                    | _           |                     |           |                            |
|            |   |                                     |                |                    |             | 2 100               | (D)       | 2.500                      |
|            | (A)   | 3-10µs                              | (B)            | 3-50µs             | (C)         | 3-100µs             | (D)       | 3-500µs                    |
| <b>66.</b> | A.Ā   | is equal to                         |                |                    |             |                     |           |                            |
|            | A.Ā   | इसके बराबर है।                      | :              |                    |             |                     |           |                            |
|            | (A)   | A                                   | (B)            | Ā                  | (C)         | 0                   | (D)       | 1                          |
| 67.        | Late  | hes are circui                      | ts wh          | ich are            |             |                     |           |                            |
|            | (A)   | edge triggere                       | ed             |                    | (B)         | level trigger       | ed        |                            |
|            | ` ′   | pulse trigger<br>न परिपथ हैं जो हैं | ed             |                    | (D)         | count trigge        | red       |                            |
|            | (A)   | कोर ट्रिगर्ड                        | (B)            | लेवल ट्रिगर्ड      | (C)         | पल्स ट्रिगर्ड       | (D)       | काउण्ट ट्रिगर्ड            |
| <b>68.</b> | If a  | n hexadecima                        | al no          | . needs to         | o be co     | onverted into       | o bin     | ary. For each              |
|            |   | adecimal digit                      |                |                    | •           |                     |           |                            |
|            |   | हेक्साडेसीमल संर<br>ने बिट होंगे ?  | <u>ब्या</u> को | बाइनरी में पा      | रिवर्तित क  | रना हो, प्रत्येक हे | रेक्साडेर | नीमल अंक के लिए            |
|            | (A)   | 1                                   | (B)            | 2                  | (C)         | 4                   | (D)       | 8                          |
| 69.        | Trut  | th table is used                    | d to ex        | xpress             |             |                     |           |                            |
|            | (A)   | Boolean exp                         | ressio         | n                  | (B)         | Boolean ma          | p         |                            |
|            | (C)   | Boolean mat                         | rix            |                    | (D)         | Boolean add         | lition    |                            |
|            | ` '   | व्यक्त करने के लि                   |                | सारणी का प्रन      |             |                     |           |                            |
|            |   | बूलीय व्यंजक                        |                |                    |             | बूलीय मैट्रिक्स     | (D)       | बूलीय योग                  |
|            |   |                                     |                |                    | 15          | Code N              | No. : C   | -573/2019/Series- <i>A</i> |

| <b>70.</b> | Hov   | v the digital si    | gnals     | are transmitte    | ed thre            | through a single conductor? |                |                   |  |  |
|------------|-------|---------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|--|--|
|            | \ /   | Parallel            | ` /       | Analog            | ` /                |                             | ` /            | None of these     |  |  |
|            | डिजि  | टल संकेतों को ए     | कल च      | ालक से किस प्रव   | जर पार <u>े</u>    | षित किया जाता               | है ?           |                   |  |  |
|            | (A)   | समान्तर             | (B)       | एनालोग            | (C)                | श्रेणी                      | (D)            | इनमें से कोई नहीं |  |  |
| 71.        | Whi   | ch network p        | rotoco    | ol is used to se  | nd E-              | -mail ?                     |                |                   |  |  |
|            | ई-मे  | ल भेजने के लिए      | किस ने    | टवर्क प्रोटोकोल व | का प्रये           | ोग किया जाता है             | ?              |                   |  |  |
|            | (A)   | FTP                 | (B)       | SSH               | (C)                | POP3                        | (D)            | SMTP              |  |  |
| 72.        | Ano   | ther term for       | main      | memory is         |                    |                             |                |                   |  |  |
|            | ` /   | Hard disk           | ` /       |                   | (C)                | Floppy disk                 | (D)            | RAM               |  |  |
|            | _     | स्मृति (मैन मैमोर्र |           |                   | ( <del>C</del> )   | ~ ~ ~ ~                     |                | <b>a</b>          |  |  |
|            | (A)   | हार्ड डिस्क         | (B)       | राम               | (C)                | फ्लॉपी डिस्क                | (D)            | रम                |  |  |
| 73.        | In th | ne left hand ru     | le foi    | re finger alwa    | ve ror             | recenta                     |                |                   |  |  |
| 13.        |       | Voltage             | iic, 101  | ic inigei aiwa    | ys ic <sub>l</sub> | rescrits                    |                |                   |  |  |
|            | ` ′   | Current             |           |                   |                    |                             |                |                   |  |  |
|            | ` /   | Magnetic fie        | 1d        |                   |                    |                             |                |                   |  |  |
|            | ` ′   | Direction of        |           | on the conduc     | etor               |                             |                |                   |  |  |
|            | ` ′   | हस्त नियम में तर्ज  | _         |                   |                    |                             |                |                   |  |  |
|            |       | वोल्टता             |           |                   |                    | धारा                        |                |                   |  |  |
|            | ` /   | चुम्बकीय क्षेत्र    |           |                   | ` /                | चालक पर बल                  | की दिः         | शा                |  |  |
|            | , ,   | J                   |           |                   | , ,                |                             |                |                   |  |  |
| <b>74.</b> | The   | change of cro       | ss-se     | ctional area of   | cond               | luctor in mag               | netic f        | field will affect |  |  |
|            | (A)   | Reluctance of       | of con    | ductor            | (B)                | Resistance of               | of cond        | ductor            |  |  |
|            | ` '   | Both (A) & (        | ` '       | •                 | \ /                | None of thes                |                |                   |  |  |
|            | _     | कीय क्षेत्र में चाल |           | _                 |                    |                             |                |                   |  |  |
|            | \ /   | चालक के प्रतिष्ठ    |           |                   | \ /                | चालक के प्रति               |                |                   |  |  |
|            | (C)   | (A) और (B) त        | द्गीनों क | Ī                 | (D)                | इनमें से कोई नह             | ही             |                   |  |  |
| <b>75.</b> | The   | lines of force      | due t     | o charged par     | ticles             | are                         |                |                   |  |  |
|            | ` ′   | Always strai        | _         |                   | (B)                | Always curv                 | ed             |                   |  |  |
|            | ` ′_  | Sometimes c         |           |                   | (D)                | None of thes                | se             |                   |  |  |
|            |       | शित कणों के का      | ।ण बल     | रखाएं हाता ह      | (D)                | <del></del>                 |                |                   |  |  |
|            | ( )   | हमेशा सीधी          |           |                   | ` ′                | हमेशा वक्रित                | <del>C</del> : |                   |  |  |
|            | (C)   | कभी-कभी वहि         | hd        |                   | (D)                | इनमें से कोई नह             | <b>ह</b> ।     |                   |  |  |

| <b>76.</b> | Which material/compound behave like perfect insulator at low temperatures & conductor at high temperature? |                |             |                   |                          |              |  |
|------------|--|----------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------|--|
|            | (A) Si   | •              | -           |                   | GaAs                     | (D)          | All of these                                   |
|            | कौन सा पदार्थ/यौ   | गिक निम्न      |             |                   |                          |              | मान पर चालक की                                 |
|            | तरह व्यवहार करता   | -              |             | (C)               |                          | (D)          | <del></del>                                    |
|            | (A) Si   | (B)            | Ge          | (C)               | GaAs                     | (D)          | यह सभी   |
| 77.        | The number of<br>जर्मेनियम परमाणु में  |                |             |                   | nium atom ar             | re           |  |
|            | (A) 28   | (B)            | •           | (C)               | 36                       | (D)          | 32   |
| <b>78.</b> | Without a DC s   | ource, a       | clipper act | s like a          |                          |              |  |
|            | (A) Rectifier  | (B)            | Clamper     | (C)               | Demodulato               | or (D)       | Chopper  |
|            | DC स्रोत के बिना व   |                | _           |                   |                          | (D)          | _3   |
|            | (A) रेक्टिफायर   | (B)            | क्लम्पर     | (C)               | ाडमा <i>ड्यूलटर</i>      | (D)          | चापर   |
| <b>79.</b> | Class-B amplifi  | er is bia      | sed         |                   |                          |              |  |
|            | (A) At mid-po  |                |             | (B)               |                          |              |  |
|            | (C) Nearly twi   | _              | _           | (D)               | None of thes             | se           |  |
|            | वर्ग-B प्रवर्धक अभि<br>(A) भार लाइन के   |                |             | (B)               | ठीक विच्छेद प            | Į.           |  |
|            | (C) लगभग दोहरे   | विच्छेद प      | उ · ·<br>र  | \ /               | इनमें से कोई नह          |              |  |
| 80.        | Five Canacitor   | s each         | of SuF a    | re con            | nected in se             | riec         | the equivalent                                 |
| 00.        | capacitance of t   |                |             | ne con            | nected in se             | 1105,        | the equivalent                                 |
|            | प्रत्येक $5 \mu \mathrm{F}$ के पाँच  |                |             | ोड़े जाते है      | । निकाय की तु            | ल्य धार्ग    | रेता होगी                                      |
|            | (A) $5\mu$ F   | (B)            | 25μF        | (C)               | 10μF                     | (D)          | 1μF  |
| 81.        | If P is the power  | er of a S      | tar connect | ed syste          | m, then what             | will         | be the power of                                |
|            | an equivalent D  | elta con       | nected syst | em?               |                          |              | _  |
|            | (A) P<br>यदि स्टार संयोजित   | (B)            | 3P          | $\frac{1}{2}$ (C) | P/3                      | (D)          | None of these                                  |
|            | याद स्टार संयाजित<br>(A) P   | ानकाय क<br>(B) |             | તા તુલ્ય ક<br>(C) | ल्टा संयाजित निष्<br>P/3 | काय क<br>(D) | । पावर क्या हागा <i>?</i><br>इनमें से कोई नहीं |
|            | (A) 1  | (D)            | 31          | (C)               | 1/3                      | (D)          | रंगन रा नगर गुल                                |
| <b>82.</b> | Which of the fo  | _              | has no unit | ·- \              |                          |              |  |
|            | (A) Permeability   | •              | 11:4        | (B)               |                          | a mag        | net  |
|            | (C) Magnet Su<br>निम्न में से किसकी  | -              | . •         | (D)               | Permittivity             |              |  |
|            | (A) चुम्बकशीलत   |                | •           | (B)               | चुम्बकीय आघू             | र्ण          |  |
|            | (C) चुम्बकीय आ   |                |             | (D)               | विद्युतशीलता             |              |  |
|            |  |                |             | 17                | Code N                   | No. : C      | -573/2019/Series-A                             |

| 83. | 3. Skin effect occurs, when a conductor carries current at |                                   |                |                    |           |                   |        |                     |
|-----|--|-----------------------------------|----------------|--------------------|-----------|-------------------|--------|---------------------|
|     | (A) Very low frequency                                     |                                   |                |                    | (B)       | Low frequency     |        |                     |
|     | (C)  | High frequen                      | cy             |                    | (D)       | None of these     |        |                     |
|     |  | प्रभाव उत्पन्न होत                |                | ब चालक धारा व      | हन कर     | ता है             |        |                     |
|     | (A)  | अति निम्न आवृ                     | त्ति पर        |                    | (B)       | निम्न आवृत्ति पर  | ξ      |                     |
|     | (C)  | उच्च आवृत्ति पर                   |                |                    | (D)       | इनमें से कोई नर्ह | Ť      |                     |
| 84. |  | symmetrical w<br>ात तरंगरूप के लि |                | _                  |           | •                 | cle is |                     |
|     | (A)  |                                   | (B)            | - •                |           | 2.22              | (D)    | 0                   |
| 85. |  | dled conducto                     |                |                    | sion 1    |                   |        |                     |
|     | (A)  | Increases ind                     | uctan          | ce                 | (B)       | Increases cap     | pacita | nce                 |
|     | ` /  | Decreases inc                     |                |                    | (D)       | Decreases ca      | pacita | ance                |
|     |  | र पारेषण लाइनों मे                |                |                    |           | . ~?              |        |                     |
|     | (A)  | प्रेरण बढ़ाते हैं।                | (B)            | धारिता बढ़ाते हैं  | I(C)      | प्रेरण घटाते हैं। | (D)    | धारिता घटाते हैं।   |
| 86. | Skin   | effect depend                     | ls upo         | n                  |           |                   |        |                     |
|     | (A)  | Frequency                         |                |                    | (B)       | Conductivity      | •      |                     |
|     |  | Relative pern                     |                |                    | (D)       | All of these      |        |                     |
|     |  | क प्रभाव निर्भर व                 | <b>फरता</b> है |                    |           |                   |        |                     |
|     | ` /  | आवृत्ति पर                        |                |                    | (B)       |                   |        |                     |
|     | (C)  | आपेक्षिक चुम्बव                   | त्रशीलत<br>-   | ा पर               | (D)       | इन सभी पर         |        |                     |
| 87. | Wate   | er hammering                      | occui          | rs in              |           |                   |        |                     |
|     | (A)  | Surge tank                        |                |                    | (B)       | Turbine casin     | ng     |                     |
|     | (C)  | Penstock                          |                |                    | (D)       | All of these      |        |                     |
|     | जलाध   | यात उत्पन्न होता है               | <u> </u>       |                    |           |                   |        |                     |
|     | (A)  | उल्लोल कुण्ड में                  | (B)            | टरबाइन कोश में     | (C)       | पेनस्टॉक में      | (D)    | इन सभी में          |
| 88. | For 1  | harnessing lov                    | v vari         | able water he      | ads, 1    | the suitable hy   | ydrau] | lic turbine with    |
|     | react  | tion and adjus                    | table          | vanes is           |           |                   |        |                     |
|     | \ /  | Francis                           |                | Impeller           |           | _                 | ` /    | Pelton              |
|     | _  |                                   | शीर्ष के       | रूक्षता के लिए प्र | प्रतिक्रि | या और समायोज      | नीय वे | न वाली उपयुक्त द्रव |
|     |  | त टरबाइन है                       |                |                    |           | _                 |        | _                   |
|     | (A)  | फ्रांसिस                          | (B)            | इम्पैलर            | (C)       | कैप्लान           | (D)    | पेल्टन              |
|     |  |                                   |                |                    |           |                   |        |                     |

| <b>89.</b> | Ideal value of voltage regulation o   | f a devi              | ce is  |
|------------|---|-----------------------|--|
|            | (A) Infinity  | (B)                   | Zero   |
|            | (C) A positive finite value   |                       | A negative finite value  |
|            | किसी डिवाइस के वोल्टता नियमन के लिए   | आदर्श मा              | न है   |
|            | (A) अनन्त   | (B)                   | शून्य  |
|            | (C) एक धनात्मक निश्चित मान  | (D)                   | एक ऋणात्मक निश्चित मान   |
| 90.        | Hydro generators are generally em   | ployed                | to run at  |
|            | द्रवं जनित्रं सामान्यतः निम्न पर चलाने के लि                                  |                       |  |
|            | (A) 500 rpm (B) 1000 rpm  | •                     | •  |
| 91.        |   |                       | otor are connected to a common                                 |
|            |   | line at u             | nity power factor the synchronous                              |
|            | motor should be   |                       |  |
|            | <ul><li>(A) Over excited</li><li>(B) Under excited</li></ul>                  |                       |  |
|            | (C) Normally excited  |                       | 1415/37  |
|            | (D) Disconnected from the comm  | non term              | inals  |
|            |   |                       | मक लाइन से जोड़ी जाती है। पोषक लाइन                            |
|            | को एकक शक्ति गुणक पर प्रचालित करने व  |                       |  |
|            | (A) अति उत्तेजित  | _                     | न्यून उत्तेजित   |
|            | (C) सामान्य उत्तेजित  |                       | सामान्य टर्मिनल से वियोजित                                     |
|            |   |                       |  |
| 92.        | A wound rotor induction motor   | can be                | distinguished from squirrel cage                               |
|            | induction motor by (A) Presence of slip-rings                                 | (B)                   | Size of frame  |
|            | (C) Shaft diameter  | (D)                   | None of these  |
|            | एक कुण्डलित रोटर प्रेरण मोटर को पिंजरी प्रे                                   | रिण मोटर              | से विभेदित किया जा सकता है                                     |
|            | (A) सर्पी वलय की उपस्थिति के द्वारा   | (B)                   | फ्रेम की साइज द्वारा   |
|            | (C) शॉफ्ट व्यास द्वारा  | (D)                   | इनमें से कोई नहीं  |
| 0.2        |   |                       | 00/ 01: 1  |
| 93.        | If an induction motor is operating  | ng at 60<br>condition | % of its synchronous speed, the is (theoretically possible) is |
|            | यदि एक पेरण मोटर इसकी 60% तल्यव   | जावाताला.<br>हाली चाल | न पर चल रही है, तो आदर्श अवस्थाओं                              |
|            | (सैद्धान्तिक सम्भव) के अधीन अधिकतम  |                       |  |
|            | (A) 100% (B) 40%  |                       |  |
|            |   | . ,                   | . ,  |
| 94.        | Horizontally mounted moving iron  | n instrun             | nents employ   |
|            | <ul><li>(A) Eddy current damping</li><li>(C) Fluid friction damping</li></ul> | (D)                   | Air friction damping Electromagnetic damping                   |
|            | क्षेतिज आरोही चल लौह उपकरण काम में र  |                       | Dieda omagnetie damping  |
|            | (A) भंबर धारा अवमन्दन   |                       | वायु घर्षण अवमन्दन   |
|            | (C) द्रव घर्षण अवमन्दन  | \ /                   | विद्युत-चुम्बक अवमन्दन   |
|            | (C) X 1 (O)-11(4)   |                       |  |
|            |   | 19                    | Code No. : C-573/2019/Series-A                                 |

| 95.        | A (0-250V) Voltmeter has a guar reading. What is the percentage error एक (0-250V) वोल्टमीटर में पूर्ण पैमाना प 150V मापता है, तो त्रुटि का प्रतिशत क्या है?                                | · if it 1<br>ाठ्यांक      | measures 150                        | V ?            |                         |
|------------|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            | (A) 2% (B) 3.33%   | (C)                       | 5%                                  | (D)            | 1%                      |
| 96.        | A spring controlled moving iron vol<br>scale value of 100V. If it draws a cur<br>एक स्प्रिंग नियन्त्रित चल लौह वोल्टमीटर 10<br>लेती है। यदि यह 0.5mA धारा लेती है तो मो<br>(A) 25V (B) 50V | rent o<br>0V के<br>टर पाट | of 0.5mA, the<br>5 पूर्ण पैमाना मान | metei<br>कि लि | reading is              |
| <b>97.</b> | The deflecting torque of a moving ire  |                           | strument is                         |                |                         |
|            | चल लौह उपकरण का विक्षेपक बल-आधूर्ण ह   |                           | 13 11 / 10                          | (D)            | (1/2) I II / 10         |
|            | (A) $I^2 dL/d\theta$ (B) $(1/2) I^2 dL/d\theta$  | 9 (C)                     | I°aL/a∀                             | (D)            | $(1/2) I dL/d\theta$    |
| 98.        | The measured value of a resistance in  |                           |                                     | s its v        | alue is $10.22\Omega$ . |
|            | What is absolute error of the measure प्रतिरोध का मापित मान $10.25 \Omega$ है, जबिक कितनी है?  |                           |                                     | है । म         | ापन की यथार्थ त्रुटि    |
|            | (A) $0.01 \Omega$ (B) $0.03 \Omega$  | (C)                       | $15.36 \Omega$                      | (D)            | $10.26 \Omega$          |
| 99.        | Air exhibits   |                           |                                     |                |                         |
|            | (A) Ferromagnetism   | (B)                       | Paramagneti                         |                |                         |
|            | (C) Anti-ferromagnetism<br>वायु प्रदर्शित करती है  | (D)                       | Ferrimagnet                         | ism            |                         |
|            | (A) लौह-चुम्बकत्व  | (B)                       | अनुचुम्बकत्व                        |                |                         |
|            | (C) प्रति-लौह चुम्बकत्व  | (D)                       | फेरीचुम्बकत्व                       |                |                         |
| 100.       | The best variety of copper from the p  | oint o                    | of view of ele                      | ctrica         | l conductivity is       |
|            | (A) Pure annealed copper   | (B)                       | Hard drawn                          | coppe          | er                      |
|            | (C) Induction hardened copper  |                           |                                     | aining         | g silicon traces        |
|            | विद्युत चालकता के दृष्टिकोण से कॉपर की उत्तर<br>(A) शुद्ध अनीलित कॉपर  |                           | म ह<br>कठोर कर्षित क                | ĭuı            |                         |
|            | (C) प्रेरण कठोरित कॉपर   | \ /                       | सूक्ष्म मात्रा सिर्वि               |                | वाला कॉपर               |
| 101        |  | . , .                     | •                                   |                |                         |
| 101.       | The converse of magnetostriction eff (A) Villari effect (B) Curie effect   |                           |                                     | (D)            | Seebeck effect          |
|            | चुबकीय विरूपण प्रभाव का विपरित है  | . ,                       | 21111 011000                        | (2)            | _                       |
|            | (A) विलारी प्रभाव (B) क्यूरी प्रभाव  | (C)                       | त्वचा प्रभाव                        | (D)            | सीबैक प्रभाव            |

| 102. | There is no hole current in good conduction     | ctors because they                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      | (A) have overlapping of conduction ar           | nd valence bands.                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | (B) have no valence bands.                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | (C) have large forbidden energy gap.            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | (D) are full of electron gas.                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | सुचालक में विवर धारा नहीं होती है, क्योंकि      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | (A) इनमें चालन और संयोजी बंध का अतिव्याप        | न होता है ।                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | (B) इनमें कोई संयोजी बंध नहीं होता है।          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | (C) इनमें वृहत् निषिद्ध ऊर्जा अन्तराल होता है।  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | (D) इलेक्ट्रॉॅन गैस से भरे होते हैं ।           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | The measurement of which one of the             | ne following will reveal the sign of   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | charge carriers?                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | •   | B) Mobility                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | •   | D) Diffusion constant                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | निम्न में से किसका मापन आवेश वाहक का संकेत      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |   | C) हॉल गुणांक (D) विसरण नियतांक        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | (2) (2) (                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Branch circuit must not feed more than          | points.                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | शाखा परिपथ को बिन्दु से अधिक पे<br>(A) 12 (B) 5 | षिण नहीं देना चाहिए ।                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | (A) 12 (B) 5                                    | C) 10 (D) 8                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105  | What is meant by contingencies?                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | (A) The list of required components as          | e included in this category            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | (B) The list of vague and unforeseen in         | — ·                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | (C) The list of components along with           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | this category.                                  | i then discounted price is included in |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | (D) Both (A) and (B)                            | m#SI=                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | कान्टिन्जेन्सीज से क्या तात्पर्य है?            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | (A) आवश्यक तत्त्वों की सूची जो इस श्रेणी में श  | ामिल है ।                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | (B) अस्पष्ट और अदृश्य मदों की सूची जो इस श्रे   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | (C) तत्त्वों की उनकी बटाकृत्त कीमत के साथ सू    | नी जो दम श्रेणी में शामिल है ।         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | (D) (A) और (B) दोनों                            | (11-11-47)                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | The cheapest system of internal wiring          | is                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | (A) Cleat (1                                    | B) Casing & capping                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |   | D) Conduit                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | आन्तरिक वायरिंग की सबसे सस्ती प्रणाली है        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | (A) क्लीट (                                     | B)  कैसिंग और कैपिंग                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | (C) CTS और TRS                                  | D) कन्डूइट                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| The thickness of insulation provided           | on the  | e conductor depends  |
|--|---|--|
| (A) Current Rating                             | (B)   | Voltage rating   |
| (C) Both (A) & (B)                             | (D)   | None of these  |
| चालक पर दी गई विद्युतरोधक की मोटाई निर्भर      | होती ह  | è  |
| (A) धारा रेटिंग                                | (B)   | वोल्टता रेटिंग   |
| (C) (A) और (B) दोनों                           | (D)   | इनमें से कोई नहीं  |
| Which of the following is not used as          | earth   | n continuity conductor?  |
| (A) Gas pipe                                   |   | Water pipe   |
| (C) Structural steel members                   | (D)   | All of these   |
| निम्न में से कौन भू-अविच्छित परिपथ के रूप म    | में प्रयोग  | ा नहीं किया जाता है ?  |
| (A) गैस पाइप                                   | (B)   | वाटर पाइप  |
| (C) संरचनात्मक स्टील अवयव                      | (D)   | यह सभी   |
|  |   |  |
|  | he en   | ids of the tubes remain lighted, it  |
|  | (D)   |  |
|  |   | The choke is defected.   |
| (C) The tube is defective.                     | (D)   | None of these  |
|  |   |  |
| ` /  | ` /   |  |
| (C) ट्यूब खराब ह।                              | (D)   | इनमें से कोई नहीं  |
| The fluorescent tube in comparison             | n to  | tungsten filament lamp has the   |
|  | 11 10   | tungsten mament tamp mus the   |
|  | (B)   | Longer life  |
| ` /  |   | None of these  |
|  |   |  |
| <i>5</i> \                                     |   |  |
| (2) (2)  | . ( - )   | (2) (11 11 12 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 1  |
| The inductive reactance of a transform         | ner d   | epends upon  |
| (A) EMF (B) MMF                                | (C)   | Leakage flux (D) None of these   |
| ट्रांसफार्मर का प्रेरक प्रतिघात निर्भर करता है |   |  |
| (A) EMF पर (B) MMF पर                          | (C)   | क्षरण फ्लक्स पर (D) इनमें से कोई नहीं  |
| TI 1 0 11 1                                    |   |  |
|  | oyed  | for high frequency eddy current  |
|  | <del></del>   |  |
| •  | •   | ·  |
|  |   | 5 kHz  |
| (C) 10 kHz                                     | (D)   | 10 kHz to/से 400 kHz   |
|  | (A) Current Rating (C) Both (A) & (B) चालक पर दी गई विद्युतरोधक की मोटाई निर्भर (A) धारा रेटिंग (C) (A) और (B) दोनों  Which of the following is not used as (A) Gas pipe (C) Structural steel members निम्न में से कौन भू-अविच्छित परिपथ के रूप र (A) गैस पाइप (C) संरचनात्मक स्टील अवयव  In case of fluorescent tube if only tindicates that (A) Starter is short circuited. (C) The tube is defective. प्रतिदिप्त ट्यूब के मामले में यदि केवल ट्यूब के (A) स्टार्टर लघु पथित है। (C) ट्यूब खराब है।  The fluorescent tube in compariso advantage of (A) Low cost (C) Simple installation प्रतिदिप्त ट्यूब का टंगस्टन फिलामेंट लैम्प की तु (A) निम्न लागत (B) लम्बा जीवनकाल  The inductive reactance of a transform (A) EMF (B) MMF ट्रांसफार्मर का प्रेरक प्रतिघात निर्भर करता है (A) EMF पर (B) MMF पर | (C) Both (A) & (B) (D) चालक पर दी गई विद्युतरोधक की मोटाई निर्भर होती हैं (A) धारा रेटिंग (B) (C) (A) और (B) दोनों (D) Which of the following is not used as earth (A) Gas pipe (B) (C) Structural steel members (D) निम्न में से कौन भू—अविच्छित परिपथ के रूप में प्रयोग (A) गैस पाइप (B) (C) संरचनात्मक स्टील अवयव (D) In case of fluorescent tube if only the endicates that (A) Starter is short circuited. (B) (C) The tube is defective. (D) प्रतिदिस ट्यूब के मामले में यदि केवल ट्यूब के सिरे प्र (A) स्टार्टर लघु पथित है। (B) (C) ट्यूब खराब है। (D) The fluorescent tube in comparison to advantage of (A) Low cost (B) (C) Simple installation (D) प्रतिदिस ट्यूब का टंगस्टन फिलामेंट लैम्प की तुलना में (A) निम्न लागत (B) लम्बा जीवनकाल (C) The inductive reactance of a transformer of (A) EMF (B) MMF (C) ट्रांसफार्मर का प्रेरक प्रतिघात निर्भर करता है (A) EMF (B) MMF पर (C) The supply frequency usually employed heating is उच्च आवृत्ति भवर धारा तापन के लिए प्रायः आवृत्ति उत्त (A) 1 kHz (B) |

| 113. | The power required for electro-depos            | sition  | is                          |
|------|---|---------|-----------------------------|
|      | (A) DC and very low voltage                     | (B)     | DC and high voltage         |
|      | (C) AC and very low voltage                     | (D)     | AC and high voltage         |
|      | वैद्युत निक्षेपण के लिए आवश्यक पॉवर है          |         |                             |
|      | (A) DC और अति निम्न वोल्टता                     | (B)     | DC और उच्च वोल्टता          |
|      | (C) AC और अति निम्न वोल्टता                     | (D)     | AC और उच्च वोल्टता          |
| 114. | Eureka is an alloy of                           |         |                             |
|      | (A) Nickel and chromium                         | (B)     | Nickel and copper           |
|      | (C) Iron, chromium and aluminium                |         |                             |
|      | यूरेका इसकी मिश्र धातु है :                     |         |                             |
|      | (A) निकल और क्रोमियम                            | (B)     | निकल और कॉपर                |
|      | (C) आयरन, क्रोमियम और एलूमिनियम                 | (D)     | निकल, क्रोमियम और एलूमिनियम |
|      |   |         |                             |
| 115. | Non-consumable electrodes are made              | e of    |                             |
|      | (A) Carbon                                      |         |                             |
|      | (B) Graphite                                    |         |                             |
|      | (C) Either carbon or graphite                   |         |                             |
|      | (D) Same material as the metal piece            | es to 1 | be welded                   |
|      | अक्षयी इलैक्ट्रोड बने होते हैं                  |         |                             |
|      | (A) कार्बन के                                   |         |                             |
|      | (B) ग्रैफाइट के                                 |         |                             |
|      | (C) कार्बन अथवा ग्रैफाइट के                     |         | ( )<br>                     |
|      | (D) वेल्ड किए जाने वाले धातु टुकड़ों के सम      | ान पदा  | थि क                        |
| 116. | Voltage required for Butt welding is            |         |                             |
|      | (A) 2-8 volts                                   | (B)     | 10-20 Volts                 |
|      | (C) 20-30 Volts                                 | (D)     | Above 30 Volts              |
|      | बट वेल्डन के लिए आवश्यक वोल्टता है              |         |                             |
|      | (A) 2-8 वोल्ट                                   | (B)     | 10-20 ਕੀल्ट                 |
|      | (C) 20-30 वोल्ट                                 | (D)     | 30 वोल्ट से अधिक            |
| 117. | Power factor of a Power Transformer             | on n    | no-load will be             |
|      | (A) Unity (B) 0.75                              | (C)     | 0.5 (D) 0.35                |
|      | शून्य भार पर पाँवर ट्रांसफॉर्मर का शक्ति गुणक ह | . ,     | . /                         |
|      | (A) एकक (B) 0.75                                |         | 0.5 (D) 0.35                |
|      |   |         | ~                           |

| 118. | Which of the following losses is/are:                             | for sh       | ort circuit test on a transformer? |
|------|---|--------------|------------------------------------|
|      | (A) Copper loss   |              | Iron loss                          |
|      | (C) Copper & iron loss  | (D)          | None of these                      |
|      | निम्न में से कौन सी हानियाँ किसी ट्रांसफार्मर पर                  | र लेघुँ प    | नथन परीक्षण के लिए है ?            |
|      | (A) ताम्र हानि  |              | लौह हानि                           |
|      | (C) ताम्र और लौह हानि   | \ /          | इनमें से कोई नहीं                  |
| 119. | Transformer will operate at maximur                               | n effi       | ciency when                        |
|      | (A) Hysteresis loss = eddy current loss                           |              |                                    |
|      | (C) Copper loss = iron loss                                       | (D)          | Hysteresis loss = copper loss      |
|      | ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता के साथ प्रचालित                        | होगा         |                                    |
|      | (A) हिस्टेरिसिस हानि = भंवर धारा हानि                             | (B)          | भंवर धारा हानि = ताम्र हानि        |
|      | (C) ताम्र हानि = लौह हानि   |              | हिस्टेरिसिस हानि = ताम्र हानि      |
| 120. | On no-load phasor diagram of trans                                | forme        | er, the core loss component of the |
|      | current remains in phase with                                     |              |                                    |
|      | (A) No-load current   | (B)          | Primary supply voltage             |
|      | (C) Core flux   |              | Primary induced voltage            |
|      | ट्रांसफार्मर के शून्य भार पर फेज़र आरेख पर, ध                     | ारा के :     | क्रोड हानि घटक कला में रहते हैं    |
|      | (A) शून्य भार धारा के साथ   | (B)          | प्राथमिक आपूर्ति वोल्टता के साथ    |
|      | (C) क्रोंड फ्लक्स के साथ  | (D)          | प्राथमिक प्रेरित वोल्टता के साथ    |
| 121. | Population wise smallest district of H                            | I.P. is      | 3                                  |
|      | (A) Hamirpur  | (B)          | Bilaspur                           |
|      | (C) Kinnaur   |              | Lahaul & Spiti                     |
|      | जनसंख्या के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे                          | छोटा         | जिला है                            |
|      | (A) हमीरपुर   | ` /          | बिलासपुर                           |
|      | (C) किन्नौर   | (D)          | लाहौल और स्पीति                    |
| 122. | Inder Kila in H.P. is a   |              |                                    |
|      | (A) Fort  | (B)          | Palace                             |
|      | (C) Mountain Peak   | (D)          | None of these                      |
|      | हिमाचल प्रदेश में इन्दर किला है, एक                               | (0)          |                                    |
|      | (A) दुर्ग (B) महल   | (C)          | पर्वत चोटी (D) इनमें से कोई नहीं   |
| 123. | Mulang Valley is located in which di                              | strict       |                                    |
|      | (A) Kullu   | (B)          | Sirmour                            |
|      | (C) Lahaul & Spiti<br>मुलंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सि | (ਪ)<br>ਅਰ ਵੈ | Shimla                             |
|      |   |              | ़<br>सिरमौर                        |
|      | (A) कुल्लू<br>(C) लाहौल और स्पीति                                 | (B)          | शिमला                              |
| ~ -  |   | (D)          | ारानपा                             |
| Code | No.: C-573/2019/Series-A 24                                       |              |                                    |

| <b>124.</b> | Chander Nahar                            | n lake is    | located in w                          | which dis    | strict of H.P.    | ?     |                   |
|-------------|--|--------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------|-------------------|
|             | (A) Lahaul &                             | Spiti        |                                       | (B)          | Shimla            |       |                   |
|             | (C) Sirmour                              |              |                                       | (D)          | Kinnaur           |       |                   |
|             | चन्दर नाहन झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले |              |                                       | जले में स्थि | ात है ?           |       |                   |
|             | (A) लाहौल और                             |              |                                       | (B)          | शिमला             |       |                   |
|             | (C) सिरमौर                               |              |                                       | (D)          | किन्नौर           | 可多    |                   |
|             | (-)                                      |              |                                       | (- )         |                   |       |                   |
| 125.        | Vedic name of                            | river Ya     | muna is                               |              |                   |       |                   |
|             | (A) Askini                               | (B)          | Arjikiya                              | (C)          | Kalindi           | (D)   | Purushni          |
|             | यमुना नदी का वैदि                        |              | 3 3                                   | ( )          |                   | ( )   |                   |
|             | (A) अस्किनी                              |              | अर्जिकिया                             | (C)          | कालिन्दी          | (D)   | पुरुष्णी          |
|             | ()                                       | (-)          |                                       | (-)          | <b>(</b>          | (-)   | 3                 |
| <b>126.</b> | The founder of                           | Keontha      | al princely s                         | state was    | S                 |       |                   |
|             | (A) Prithvi Si                           |              | -                                     |              |                   | (D)   | Giri Sen          |
|             | कियोंथल राजसी र                          |              |                                       | ( )          | Č)                | ( )   |                   |
|             | (A) पृथ्वी सिंह                          | (B)          | करण चन्द                              | (C)          | रामसिंह           | (D)   | गिरिसेन           |
|             | () &                                     | (-)          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (-)          |                   | (- )  |                   |
| <b>127.</b> | Rani-Ka-Kot F                            | ort is loc   | cated in whi                          | ch distri    | ict of H.P.?      |       |                   |
|             | (A) Mandi                                | (B)          | Shimla                                | (C)          | Kangra            | (D)   | Chamba            |
|             | रानी-का-कोट कि                           | /            |                                       | . ` _′ _     | •                 | . ,   |                   |
|             | (A) मण्डी                                |              | शिमला                                 |              | काँगड़ा           | (D)   | चम्बा             |
|             |  | <b>\</b>     |                                       | , ,          | ·                 | ( )   |                   |
| <b>128.</b> | Narvadeshwar                             | temple is    | s located at                          | which p      | lace in H.P.      | ?     |                   |
|             | (A) Sujanpur                             | (B)          | Palampur                              | (C)          | Nahan             | (D)   | Ghumarwi          |
|             | नरवदेश्वर मन्दिर हि                      | हेमाचल प्रदे | श में किस स्थ                         | ान पर स्थि   | रत है ?           |       |                   |
|             | (A) सुजानपुर                             | (B)          | पालमपुर                               | (C)          | नाहन              | (D)   | घुमरवी            |
|             | . ,                                      |              | J                                     |              |                   | ` ´   |                   |
| <b>129.</b> | Who was the k                            | ing of C     | hamba whei                            | n Jahang     | gir visited it is | n 162 | 1 AD ?            |
|             | (A) Sahil Vari                           | man          |                                       | (B)          | Lakshman V        | arma  | n                 |
|             | (C) Balabhadı                            | ra           |                                       | (D)          | None of thes      | se    |                   |
|             | चम्बा का राजा कौ                         | न था जब      | 1621 ई. में ज                         | हाँगीर ने व  | वहाँ की यात्रा की | ?     |                   |
|             | (A) साहिल वर्मन                          | (B)          | लक्ष्मण वर्मन                         | (C)          | बलभद्र            | (D)   | इनमें से कोई नहीं |
|             |  |              |                                       |              |                   |       |                   |
| 130.        | Which Muslim                             |              | _                                     | _            |                   | mples | in 1009 AD?       |
|             | (A) Mohamm                               |              |                                       |              | Nadir Shah        |       |                   |
|             | (C) Mehmood                              |              |                                       |              |                   |       | ~ ;; ;            |
|             | किस मुस्लिम शास                          |              |                                       |              |                   |       |                   |
|             | (A) मोहम्मद गौर्र                        | (B)          | नादिर शाह                             | (C)          | महमूद गज़नवी      | (D)   | इनमें से कोई नहीं |
|             |  |              |                                       |              |                   |       |                   |

| 131.     | Hov  | v many memb                       | ers w  | ere in the fin                        | st Legis      | slative Assen     | nbly o       | f H.P. ?          |
|----------|------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
|          | (A)  | 26                                | (B)    | 32                                    | (C)           | 35                | (D)          | None of these     |
|          | हिमा | वल प्रदेश की प्रथ                 | म विध  | ानसभा में कित                         | ने सदस्य      | થે ?              |              |                   |
|          | (A)  | 26                                | (B)    | 32                                    | (C)           | 35                | (D)          | इनमें से कोई नहीं |
| 132.     | The  | 'Gujjars' of p                    | resen  | t H.P. are th                         | e desce       | ndents of         |              |                   |
|          |      | Huns                              |        | Mongols                               |               | Afghans           | (D)          | None of these     |
|          |      | ान हिमाचल प्रदेश                  | _      |                                       |               |                   |              | » > > c ~         |
|          | (A)  | हूण                               | (B)    | मंगोल                                 | (C)           | अफग़ान            | (D)          | इनमें से कोई नहीं |
| 133.     | Him  | alayan Fertili                    | zer In | dustry is loc                         | cated at      | which place       | of H.F       | P. ?              |
|          |      | Sundernagar                       |        |                                       |               |                   |              | Nalagarh          |
|          | -    | लयन ऊर्वरक उद्ये                  | -      | -                                     |               | -                 |              |                   |
|          | (A)  | सुन्दरनगर                         | (B)    | पौटा साहिब                            | (C)           | परागपुर           | (D)          | नालागढ़           |
| 134.     | Ribl | oa, 'the land o                   | f grap | es' is locate                         | ed in wh      | nich district o   | f H.P.       | ?                 |
|          |      | Lahaul & Sp                       |        |                                       | (B)           | Kullu             |              |                   |
|          | \ /  | Solan                             |        | , ,                                   |               | Kinnaur           |              |                   |
|          |      | ं, 'अंगूरों की धरत                | _      | ाचल प्रदेश के                         |               |                   |              |                   |
|          | \ /  | लाहौल और स्प                      | ति     |                                       |               | कुल्लू            |              |                   |
|          | (C)  | सोलन                              |        |                                       | (D)           | किन्नौर           |              |                   |
| 135.     | H.P. | . Art & Cultur                    | e Aca  | demv was e                            | stablish      | ned in which      | vear ?       |                   |
|          |      | वल प्रदेश कला ए                   |        |                                       |               |                   |              |                   |
|          |      | 1968                              | ,      | 1971                                  |               | _                 |              | 1985              |
| 136.     | Whi  | ch mirror is u                    | sed as | s a shaving 1                         | nirror ?      |                   |              |                   |
|          |      | Convex mirr                       |        |                                       |               | Concave mi        | rror         |                   |
|          | (C)  | Plane mirror                      |        | ,                                     | (D)           | None of the       | se           |                   |
|          |      | ा दर्पण के रूप में                |        |                                       |               |                   | <i>-</i> - \ | , , , ,           |
|          | (A)  | उत्तल दर्पण                       | (B)    | अवतल दर्पण                            | (C)           | समतल दर्पण        | (D)          | इनमें से कोई नहीं |
| 137.     | Coa  | ting used on r                    | ainco  | ats are water                         | rproof b      | ecause            |              |                   |
|          |      | Water is abso                     |        |                                       |               |                   |              |                   |
|          |      | Water is scat                     |        |                                       | e coating     | g                 |              |                   |
|          |      | Angle of con                      |        |                                       |               |                   |              |                   |
|          | (D)  | Adhesive for<br>ट (बरसाती) पर     | re be  | comes great<br><del>altin</del> (anam | er<br>n) aran | गार होता है। क्यो | ifa          |                   |
|          |      | ट (बरसाता) पर<br>कोटिंग द्वारा जल |        |                                       |               | र्भ हाता है, प्य  | ાાજ          |                   |
|          | \ /  | कोटिंग द्वारा जल                  |        |                                       | _             |                   |              |                   |
|          | \ /  | सम्पर्क कोण बढ़                   | _      | नत कर दिया ५                          | ar/ri 6 1     |                   |              |                   |
|          | \ /  | सम्बक्त काण बढ़<br>आसंजन बल अ     |        | गे जाता है ।                          |               |                   |              |                   |
| <b>.</b> | ( )  |                                   |        | · -                                   | • ~           |                   |              |                   |
| Code     | No.: | C-573/2019/Ser                    | nes-A  |                                       | 26            |                   |              |                   |

| 138.  | Whi  | ch is a disaccl    | a disaccharide? |                                 |                     |                  |                            |              |  |  |
|-------|--|--------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|--|--|
|       | (A)  | Fructose           | (B)             | Glucose                         | (C)                 | Sucrose          | (D)                        | Xylose       |  |  |
|       |  | सा एक डाइसैकेरा    |                 |                                 | ` '                 |                  | ,                          | •            |  |  |
|       |  | फ्रक्टोज           |                 |                                 | (C)                 | सुक्रोज          | (D)                        | ज़ाइलोज      |  |  |
|       | ()   |                    | (_)             | · <b>c</b>                      | (-)                 | 3                | (-)                        |              |  |  |
| 139.  | The  | charcoal used      | l to de         | colourise raw                   | suga                | r is             |                            |              |  |  |
|       |  | Animal Char        |                 |                                 |                     | Sugar Charc      | oal                        |              |  |  |
|       | (C)  | Coconut Cha        | rcoal           |                                 | ` ′                 | Wood Charc       |                            |              |  |  |
|       | अपरि   | ष्कृत शुगर को रंग  | ाहीन क          | रने के लिए प्रय <del>ुत्त</del> |                     |                  |                            |              |  |  |
|       |  |                    |                 |                                 |                     |                  | f (D)                      | लकड़ी चारकोल |  |  |
|       | ( )  |                    | ( )             | 9                               | ( )                 |                  | ( )                        | •            |  |  |
| 140.  | Whe  | eat and Potato     | are             |                                 |                     |                  |                            |              |  |  |
|       | (A)  | Short day pla      | ants            |                                 | (B)                 | Long day pla     | ants                       |              |  |  |
|       | (C)  | Day neutral p      | olants          |                                 | (D)                 | None of thes     | se                         |              |  |  |
|       |  | गौर आलू हैं        |                 |                                 | ` /                 |                  |                            |              |  |  |
|       |  | अल्प अवधि पा       | दप              |                                 | (B)                 | दीर्घ अवधि पाट   | (प                         |              |  |  |
|       | (C)  | दिवस निरपेक्ष पा   | दप              |                                 | (D)                 | इनमें से कोई नह  | ीं                         |              |  |  |
|       | ( )  |                    |                 |                                 |                     |                  |                            |              |  |  |
| 141.  | Whi  | ch part of the     | huma            | n body is affe                  | cted l              | by Falciparun    | n mala                     | aria ?       |  |  |
|       |  | Liver              | (B)             | Pancreas                        | (C)                 | Brain            | (D)                        | Kidney       |  |  |
|       | मानव शरीर का कौन सा अंग फाल्सीपैरम मलेरिया से प्रभावित होता है ? |                    |                 |                                 |                     |                  |                            |              |  |  |
|       | (A)  | यकृत               | (B)             | अग्न्याशय                       | (C)                 | मस्तिष्क         | (D)                        | वृक्क        |  |  |
|       |  | -                  |                 |                                 |                     |                  |                            | -            |  |  |
| 142.  | The  | most beautifu      | l bric          | k work of the                   | Hara                | ppans is foun    | d in th                    | ne           |  |  |
|       | (A)  | dockyard           |                 |                                 | (B)                 | great bath       |                            |              |  |  |
|       | ` /  | fire altars        | 1               |                                 | (D)                 | temple like s    | tructi                     | ure          |  |  |
|       | हड़प्पावासियों का सबसे सुन्दर ईंट कार्य पाया गया है              |                    |                 |                                 |                     |                  |                            |              |  |  |
|       | (A) गोदी में   |                    |                 | (B)                             | विशाल स्नानागार में |                  |                            |              |  |  |
|       | (C)  | अग्नि वेदिका में   |                 |                                 | (D)                 | मन्दिर जैसी संरन | वना में                    | □指□<br>965<0 |  |  |
|       |  | 0.1.0.11           |                 | 4                               |                     | 25 44 2          |                            | <b>□</b> 735 |  |  |
| 143.  |  | of the follow      | _               |                                 | _                   |                  | <i>(</i> <b>-</b> <i>)</i> |              |  |  |
|       |  |                    |                 | Bimbisara                       | (C)                 | Chetaka          | (D)                        | Ajatashatru  |  |  |
|       |  | में से कौन बुद्ध क |                 |                                 |                     |                  |                            |              |  |  |
|       | (A)  | प्रसेनजित          | (B)             | बिम्बिसार                       | (C)                 | चेतक             | (D)                        | अजातशत्रु    |  |  |
| 1 4 4 | T  | 41. I 41 II        | 1 2 -           | 41 42 41. 4                     | 4                   | 41               |                            |              |  |  |
| 144.  |  | orth India, Ha     |                 | •                               |                     |                  | (D)                        | D:1          |  |  |
|       | ` /  | Kashmir            | ` ′_            | Rajasthan                       | (C)                 | Punjab           | (D)                        | Bihar        |  |  |
|       |  | भारत में हर्ष की स |                 |                                 | (C)                 | ·                | ( <b>D</b> )               | चित्रम गर    |  |  |
|       | (A)  | कश्मीर पर          | (B)             | राजस्थान पर                     | (C)                 | पंजाब पर         | (D)                        | बिहार पर     |  |  |

| 145.        | Baba Farid was associated with which   | ch sufi | order?                    |         |              |  |  |  |  |
|-------------|--|---------|---------------------------|---------|--------------|--|--|--|--|
|             | <ul><li>(A) Suhrawardi order</li><li>(C) Chisti order</li></ul>              |         | Qadri order<br>Naqshbandi | order   |              |  |  |  |  |
|             | बाबा फरीद किस सूफी मत से सम्बन्धित थे ?                                      | ( )     | 1                         |         |              |  |  |  |  |
|             | (A) सुहरवर्दी मत (B) कादरी मत  | (C)     | चिश्ती मत                 | (D)     | नक्शबन्दी मत |  |  |  |  |
| 146.        | The rule established by Muhammad   | Ghori   | lasted for ne             | arly    |              |  |  |  |  |
|             | (A) 200 years (B) 300 years मोहम्मद गौरी द्वारा स्थापित शासन चला लगभ         |         | 400 years                 | (D)     | 500 years    |  |  |  |  |
|             | (A) 200 वर्ष (B) 300 वर्ष  |         | 400 वर्ष                  | (D)     | 500 वर्ष     |  |  |  |  |
| 147.        | Satyagraha launched by Gandhiji me   | eant    |                           |         |              |  |  |  |  |
|             | (A) passive resistance   | (B)     | assertion of              | truth   |              |  |  |  |  |
|             | (C) to stop work and go on a fast गांधीजी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह साधन था | (D)     | to defy the l             | aws o   | f the land   |  |  |  |  |
|             | (A) निष्क्रिय विरोध का   | (B)     | सत्य के दावे क            | T       |              |  |  |  |  |
|             | (C) काम रोकने और अनशन पर जाने का   | (D)     | भूमि के नियमों            | की अव   | ाज्ञा का     |  |  |  |  |
| 148.        | Block mountains have originated as   | a resu  | lt of                     |         |              |  |  |  |  |
|             | (A) folding  | (B)     | faulting                  |         |              |  |  |  |  |
|             | (C) volcanic eruptions   |         | All of these              |         |              |  |  |  |  |
|             | ब्लोक माउण्टेन किसके परिणामस्वरूप उत्पन्न ह                                  | _       | •                         |         |              |  |  |  |  |
|             | (A) वलन  | ` /     | भ्रंशन                    |         |              |  |  |  |  |
|             | (C) ज्वालामुखी उद्गार  | (D)     | इन सभी                    |         |              |  |  |  |  |
| 149.        | What is the percentage of insolation   |         |                           | th's sı | urface?      |  |  |  |  |
|             | पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्त सूर्यतपन का प्रतिशत                             |         |                           | (D)     | 710/         |  |  |  |  |
|             | (A) 35% (B) 42%  | (C)     | 51%                       | (D)     | /1%          |  |  |  |  |
| <b>150.</b> | High tides are caused when   |         |                           |         |              |  |  |  |  |
|             | (A) the sun, the earth and the moon are in the same line                     |         |                           |         |              |  |  |  |  |
|             | (B) the sun and the moon are in opposite direction to the earth              |         |                           |         |              |  |  |  |  |
|             | (C) Both (A) and (B)   |         |                           |         |              |  |  |  |  |
|             | (D) None of these  |         |                           |         |              |  |  |  |  |
|             | ज्वार उत्पन्न होते हैं जब  |         |                           |         |              |  |  |  |  |
|             | (A) सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा एक ही रेखा में होते हैं।                       |         |                           |         |              |  |  |  |  |
|             | (B) सूर्य और चन्द्रमा, पृथ्वी की विपरित दिश                                  | ॥ म हो  | त ह ।                     |         |              |  |  |  |  |
|             | (C) (A) और (B) दोनों   |         |                           |         |              |  |  |  |  |
|             | (D) इनमें से कोई नहीं  |         |                           |         |              |  |  |  |  |

| 151. | Who among the ecosystem?              | follo  | owing is the       | 'Secondary Consumer' in the fo |                   |        |                   |  |
|------|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--|
|      | (A) Beetle<br>निम्न में से कौन वन पा  | ` ′  |                    | ` ′                            |                   | (D)    | None of these     |  |
|      |                                       |  | _                  |                                | शेर               | (D)    | इनमें से कोई नहीं |  |
| 152. | In India, anticyclo                   | nes o  | ccur during        |                                |                   |        |                   |  |
|      | (A) Winters                           | (B)  | Autumn             | (C)                            | Summers           | (D)    | Spring            |  |
|      | इसके दौरान भारत में प्र               | ति चक्र  | ज्वात उत्पन्न होते | हैं :                          |                   |        |                   |  |
|      | (A) सर्दी                             | (B)  | शरद                | (C)                            | गर्मी             | (D)    | बसन्त             |  |
| 153. | Which is a tidal po                   | ort ?  |                    |                                |                   |        |                   |  |
|      | (A) Tuticorin<br>कौन सा ज्वारीय पत्तन |  | Marmagao           | (C)                            | Paradip           | (D)    | Kandla            |  |
|      | (A) तूतीकोरीन                         | (B)  | मारमागाँव          | (C)                            | पारादीप           | (D)    | कण्डला            |  |
| 154. | Which Article of Constitutional Ren   |  |                    | nstitu                         | ntion deals v     | with   | the 'Right to     |  |
|      | (A) Article 19<br>भारतीय संविधान का व |  |                    |                                |                   |        |                   |  |
|      | (A) अनुच्छेद 19                       |  |                    |                                |                   |        |                   |  |
| 155. | President can forw                    | vard h   | is resignation     | to                             |                   |        |                   |  |
|      | (A) Chief Justice                     |  |                    | ` ,                            |                   |        | 050<br>860        |  |
|      | ` ' . <del>-</del>                    | Speaker of Lok Sabha (D) None of these<br>अपना त्यागपत्र किसे भेज सकता है? |                    |                                |                   | e      | 1=15/25           |  |
|      | (A) भारत के मुख्य न्यायाधीश           |  |                    |                                | प्रधान मंत्री     |        |                   |  |
|      | (C) लोक सभा स्पीकर                    |  |                    | (D)                            | इनमें से कोई नर्ह |        |                   |  |
| 156. | How many times,                       | the te   | enure of Lok S     | Sabha                          | was increased     | d to 6 | years?            |  |
|      | (A) 1                                 | (B)  |                    | (C)                            |                   | (D)    | Never             |  |
|      | कितनी बार लोक सभा<br>(A) 1            | का क<br>(B)  |                    | क बढ़<br>(C)                   |                   | (D)    | कभी नहीं          |  |

29

| 157. | The retired judge of High Court is not permitted to practice as a lawyer in  (A) Supreme Court  (B) Any Court in India  (C) The High Court where he retired from |                |                      |                       |                                |  |  |  |
|------|--|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|--|
|      | उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वर्<br>(A) सर्वोच्च न्यायालय में   |                |                      |                       |                                |  |  |  |
| 158. | (C) उच्च न्यायालय जहाँ से वह सेवानिवृत्त हुआ (D) इनमें से कोई नहीं Per capita income is obtained by dividing National Income by                                  |                |                      |                       |                                |  |  |  |
|      | (A) Total population of the country  |                |                      |                       | oulation                       |  |  |  |
|      | (C) Area of the country  | \ /            | None of thes         | e                     |                                |  |  |  |
|      | राष्ट्रीय आय को इससे भाग देने पर प्रति व्यक्ति उ   |                |                      | .O.                   |                                |  |  |  |
|      | ` /  | ` /            | 9                    | न्ल कार्यशील जनसंख्या |                                |  |  |  |
|      | (C) देश का क्षेत्रफल   | (D)            | इनमें से कोई नर्ह    | Ť                     |                                |  |  |  |
| 159. | In case of direct tax, impact of tax an  | d inc          | idence of tax i      | S                     |                                |  |  |  |
|      | (A) on two different persons   |                | (B) on same person   |                       |                                |  |  |  |
|      | (C) any other person   | . ,            | None of these        |                       |                                |  |  |  |
|      | प्रत्यक्ष कर के मामले में, कर का प्रभाव और कर का आपतन होता है  |                |                      |                       |                                |  |  |  |
|      |  |                | एक ही व्यक्ति प      | र                     |                                |  |  |  |
|      |  |                |                      |                       |                                |  |  |  |
|      |  | ( )            | , , ,                |                       |                                |  |  |  |
| 160. | 'Atom' is related to 'Molecule', in th   | e san          | ne way as 'Cel       | l' is r               | elated to                      |  |  |  |
|      | (A) Matter (B) Nucleus   | (C)            | Organism             | (D)                   | Battery                        |  |  |  |
|      | परमाणु, अणु से उसी प्रकार सम्बन्धित है जिस !   |                |                      | ` '                   | •                              |  |  |  |
|      | (A) पदार्थ से (B) नाभिक से   | (C)            | जीव से               | (D)                   | बैटरी से                       |  |  |  |
| 161. | Missing terms in the letter series : abo<br>সঞ্জ্য পৃঁखला : abca_bcaab _ca_bbc   |                |                      | bc                    | a are                          |  |  |  |
|      | (A) ccaa (B) bbaa  |                |                      | (D)                   | abba                           |  |  |  |
| 162. | Which Indian tech company has rec Science on robotics and 5G?  | ently          | partnered wit        | h Ind                 | lian Institute of              |  |  |  |
|      | (A) Wipro (B) Infosys किस भारतीय टैक कम्पनी ने हाल ही में रोब  | (C)<br>गोटिक्स | Tata<br>। और 5G पर भ | (D)<br>गरतीय          | Reliance<br>विज्ञान संस्थान से |  |  |  |
|      | भागीदारी की है ?<br>(A) विप्रो (B) इन्फोसिस  | (C)            | टाटा                 | (D)                   | रिलायंस                        |  |  |  |

| 163. | On which date, the Communal Harmony Day is celebrated in India?  |   |                                |  |                          |   |                               |  |
|------|--|---|--------------------------------|--|--------------------------|---|-------------------------------|--|
|      | (A)  | August 21   | (B)                            | August 22  | (C)                      | August 20                                   | (D)                           | August 23  |
|      | भारत में किस तिथि को साम्प्रदायिक सौहार्द्र दिवस मनाया जाता है ? |   |                                |  |                          |   |                               |  |
|      | (A)  | 21 अगस्त  | (B)                            | 22 अगस्त   | (C)                      | 20 अगस्त                                    | (D)                           | 23 अगस्त   |
| 164. | anot<br>man<br>लड़ि  | her row of gir<br>y girls are the<br>केयों की एक कत | rls, Su<br>ere in l<br>गर में, | inita is 14 <sup>th</sup> fro<br>both the rows<br>वीणा प्रारम्भ से 1 | om th<br>toget<br>2वीं उ | e start and 20¹<br>her ?<br>और अन्त से 19वं | <sup>th</sup> fron<br>ीं है । | om the end. In<br>n the end. How<br>लड़िकयों की अन्य<br>तनी लड़िकयाँ हैं ? |
|      | (A)  | Ğ   | (B)                            |  | (C)                      | ~   | (D)                           | 72   |
| 165. |  | onym of the w                                       |                                | •  | (6)                      | a Sch                                       | (D)                           |  |
|      | (A)  | Cautious  | (B)                            | Considerate  | (C)                      | Clever                                      | (D)                           | Cunning  |
| 166. | One  | word substitu                                       | ition f                        | for given word   | ls 'A                    | post without r                              | emur                          | neration' is   |
|      | (A)  | Voluntary   | (B)                            | Sinecure   | (C)                      | Honorary                                    | (D)                           | Involuntary  |
| 167. | You  | should never  | laugh                          | th   | e poo                    | r.  |                               |  |
|      | (A)  | on  | (B)                            | at   | (C)                      | over  | (D)                           | for  |
| 168. | शुद्ध :  | शब्द है   |                                |  |                          |   |                               |  |
|      | (A)  | नक्षतर  | (B)                            | नक्शत्र  | (C)                      | नक्षत्र                                     | (D)                           | नकषत्र   |
| 169. | 'निरूक्त' का सन्धि विच्छेद है                                    |   |                                |  |                          |   |                               |  |
|      | (A)  | निर + उक्त  | (B)                            | निः + उक्त   | (C)                      | नीः + उक्त                                  | (D)                           | नीर + उक्त   |
| 170. | 'याच   | ना' का बहुवचन                                       | है                             |  |                          |   |                               |  |
|      | (A)  | याचना   | (B)                            | याचनाएँ  | (C)                      | याचिका                                      | (D)                           | याचनाओं  |
|      |  |   |                                |  |                          |   |                               |  |

31

## Space For Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

